

This Question Paper consists of 47 questions and 32 printed pages.

इस प्रश्न-पत्र में 47 प्रश्न तथा 32 मुद्रित पृष्ठ हैं।

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

अनुक्रमांक

Code No. 70/OSS/2

कोड नं.

SET/सेट -

A

ACCOUNTANCY

लेखांकन

(Principles and Practice of Financial Accounting)

(वित्तीय लेखांकन के सिद्धान्त एवं व्यवहार)

(320)

Day and Date of Examination

(परीक्षा का दिन व दिनांक)

Signature of Invigilators

(निरीक्षकों के हस्ताक्षर)

1.

2.

General Instructions :

1. Candidate must write his/her Roll Number on the first page of the Question Paper.
2. Please check the Question Paper to verify that the total pages and total number of questions contained in the Question Paper are the same as those printed on the top of the first page. Also check to see that the questions are in sequential order.
3. Making any identification mark in the Answer-Book or writing Roll Number anywhere other than the specified places will lead to disqualification of the candidate.
4. Write your Question Paper Code No. 70/OSS/2, Set-

A

 on the Answer-Book.
5. (a) The Question Paper is in English/Hindi medium only. However, if you wish, you can answer in any one of the languages listed below :
English, Hindi, Urdu, Punjabi, Bengali, Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Marathi, Oriya, Gujarati, Konkani, Manipuri, Assamese, Nepali, Kashmiri, Sanskrit and Sindhi.
You are required to indicate the language you have chosen to answer in the box provided in the Answer-Book.
(b) If you choose to write the answer in the language other than Hindi and English, the responsibility for any errors/mistakes in understanding the questions will be yours only.
6. In case of any doubt or confusion in the question paper, the **English** Version will prevail.

सामान्य अनुदेश :

1. परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें।
2. कृपया प्रश्न-पत्र को जाँच लें कि प्रश्न-पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जाँच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में हैं।
3. उत्तर-पुस्तिका में पहचान-चिह्न बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जायेगा।
4. अपनी उत्तर-पुस्तिका पर प्रश्न-पत्र का कोड नं. 70/OSS/2, सेट-

A

 लिखें।
5. (क) प्रश्न-पत्र केवल हिंदी/अंग्रेजी माध्यम में है। फिर भी, यदि आप चाहें तो नीचे दी गई किसी एक भाषा में उत्तर दे सकते हैं :
अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगला, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उड़िया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, असमिया, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत और सिंधी।
कृपया उत्तर-पुस्तिका में दिए गए बॉक्स में लिखें कि आप किस भाषा में उत्तर लिख रहे हैं।
(ख) यदि आप हिंदी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उत्तर लिखते हैं तो प्रश्न को समझने में होने वाली त्रुटियों / गलतियों की जिम्मेदारी केवल आपकी होगी।
6. प्रश्न-पत्र में किसी भी प्रकार के संदेह अथवा दुविधा की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा।

ACCOUNTANCY

लेखांकन

(Principles and Practice of Financial Accounting)

(वित्तीय लेखांकन के सिद्धान्त एवं व्यवहार)

(320)

Time : 3 Hours]

समय : 3 घण्टे]

[Maximum Marks : 100

[पूर्णांक : 100

- Note :**
- (i) This question paper consists of **47** questions in all.
 - (ii) **All** questions are compulsory. Internal choices are given wherever required.
 - (iii) Marks are given against each question.
 - (iv) Attempt these questions as per the instructions given for each of the questions.
 - (v) This question paper has **two** section - **Section 'A'** and **Section 'B'**.
 - (vi) **Section 'A'** has **36** questions from Question No. **1 to 36**.
 - (vii) **Section 'B'** has **11** questions from Question No. **37 to 47**.
 - (viii) **Section 'B'** has **two** options. **Optional Module - I** : Analysis of Financial Statements. **Optional Module - II** : Application of Computers in Financial Accounting. Candidates are required to attempt questions from one option only. All questions of an option are compulsory.

- निर्देश :**
- (i) इस प्रश्न-पत्र में कुल **47** प्रश्न हैं।
 - (ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जहाँ आवश्यक है, वहाँ आंतरिक विकल्प दिए गए हैं।
 - (iii) प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दिए गए हैं।
 - (iv) इन प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक प्रश्न में दिए गए निर्देशानुसार दीजिए।
 - (v) इस प्रश्न-पत्र में दो खण्ड हैं - खण्ड '**A**' एवं खण्ड '**B**'।
 - (vi) खण्ड '**A**' में **36** प्रश्न हैं, प्रश्न-संख्या **1** से **36** तक।
 - (vii) खण्ड '**B**' में **11** प्रश्न हैं, प्रश्न-संख्या **37** से **47** तक।
 - (viii) खण्ड '**B**' में दो विकल्प हैं। वैकल्पिक मॉड्यूल - **I** : वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। वैकल्पिक मॉड्यूल - **II** : वित्तीय लेखांकन में कम्प्यूटर का प्रयोग। परीक्षार्थियों को केवल एक विकल्प के ही उत्तर देने हैं। एक विकल्प के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

NOTE / निर्देश :

- (1) Answers of all questions are to be given in the Answer-Book given to you. सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दी गयी उत्तर पुस्तिका में ही लिखें।
- (2) 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 02.15 p.m. From 02.15 p.m. to 02.30 p.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण दोपहर में 02.15 बजे किया जाएगा। 02.15 बजे से 02.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

SECTION – A

खण्ड – A

- 1 'Journal' is known as: 1
- (A) Book of Primary Entry
(B) Book of Secondary Entry
(C) Book of Final Entry
(D) Book of both Secondary and Final Entry
- ‘रोजनामचा’ को जाना जाता है:
- (A) प्राथमिक प्रविष्टि की पुस्तक
(B) द्वितीयक प्रविष्टि की पुस्तक
(C) अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक
(D) द्वितीयक व अंतिम दोनों प्रविष्टियों की पुस्तक
- 2 As per 'Accounting Equation' which of the following amounts are correct? 1
- (A) Assets ₹ 7,85,000; Liabilities ₹ 1,25,000; Capital ₹ 6,60,000
(B) Assets ₹ 8,20,000; Liabilities ₹ 2,80,000; Capital ₹ 11,00,000
(C) Assets ₹ 9,55,000; Liabilities ₹ 1,15,000; Capital ₹ 8,20,000
(D) Assets ₹ 5,42,000; Liabilities ₹ 6,54,000; Capital ₹ 1,12,000
- ‘लेखांकन समीकरण’ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राशियां सही हैं ?
- (A) ₹ 7,85,000 की परिसंपत्तियां; ₹ 1,25,000 की देयताएं; ₹ 6,60,000 की पूँजी
(B) ₹ 8,20,000 की परिसंपत्तियां; ₹ 2,80,000 की देयताएं; ₹ 11,00,000 की पूँजी
(C) ₹ 9,55,000 की परिसंपत्तियां; ₹ 1,15,000 की देयताएं; ₹ 8,20,000 की पूँजी
(D) ₹ 5,42,000 की परिसंपत्तियां; ₹ 6,54,000 की देयताएं; ₹ 1,12,000 की पूँजी
- 3 Which of the following errors will affect the Trial Balance? 1
- (A) Omission to record a transaction in a journal.
(B) Recording a wrong amount of an item in journal.
(C) Mistake in totalling of sales book.
(D) Posting the correct amount on correct side but in wrong account.
- निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित करेगी ?
- (A) किसी लेनदेन का लेखा रोजनामचे में होने से चूक।
(B) रोजनामचे में किसी मद की राशि की गलत प्रविष्टि।
(C) विक्रय बही के योग में त्रुटि।
(D) सही पक्ष में सही राशि की खतौनी लेकिन गलत खाते में।

- 4 After preparing Trial Balance the accountant finds that a sale of ₹ 390 to Ravi has been posted to the credit of his account as ₹ 290. To make the rectification which of the following is correct? 1

(A) Debited to Suspense Account by ₹ 680.
(B) Credited to Suspense Account by ₹ 680.
(C) Debited to Ravi's Account by ₹ 680.
(D) Credit to Ravi's Account by ₹ 680.

तलपट तैयार हो जाने के बाद लेखाकार को यह पता चला कि रवि को ₹ 390 के विक्रय की खतौनी उसके खाते के जमा पक्ष में ₹ 290 की राशि से हो गई है। इसका शोधन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है ?

(A) उचंति खाते के नाम पक्ष में ₹ 680 से लेखा।
(B) उचंति खाते के जमा पक्ष में ₹ 680 से लेखा।
(C) रवि के खाते के नाम पक्ष में ₹ 680 से लेखा।
(D) रवि के खाते के जमा पक्ष में ₹ 680 से लेखा।

- 5 Which of the following is an item of 'Income' in a Not-For-Profit Organisation? 1

(A) Legacy (B) Donations for Building Fund
(C) Life Membership Fees (D) Sales of Newspaper

निम्नलिखित में से कौन सी मद गैर-लाभकारी संस्था के लिए 'आय' की मद है ?

(A) वसीयत (B) भवन कोष के लिए दान
(C) आजीवन सदस्यता शुल्क (D) समाचार-पत्र का विक्रय

- 6 In a Trial Balance of a Sole Traders Debtors were appearing at ₹ 50,000 and Bad debts amounting to ₹ 5,000. In additional information it is written that 'Create a provision for doubtful debts @5% on debtors'. The amount to be debited in Profit and Loss Account of Sole Traders will be- 1

(A) ₹ 7,500 (B) ₹ 2,250
(C) ₹ 2,750 (D) ₹ 5,000

एक एकल-व्यापारी के तलपट में देनदार ₹ 50,000 और अप्राप्य ऋणों की राशि ₹ 5,000 से दर्शाई गई थी। अतिरिक्त सूचना में 'देनदारों पर 5% की दर से प्रावधान' बनाने के लिए कहा गया है। एकल व्यापारी के लाभ-हानि खाते के नाम पक्ष में लिखी जाने वाली राशि होगी:

(A) ₹ 7,500 (B) ₹ 2,250
(C) ₹ 2,750 (D) ₹ 5,000

- 7 'Trade Mark' is an example of which of the following assets? 1
- (A) Liquid Assets (B) Wasting Assets
(C) Intangible Assets (D) Fictitious Assets
- ‘व्यापारिक चिह्न’ (ट्रेडमार्क) निम्नलिखित में से किस प्रकार की संपत्तियों का उदाहरण है ?
- (A) तरल संपत्तियां (B) क्षयी संपत्तियां
(C) अमूर्त संपत्तियां (D) अवास्तविक संपत्तियां
- 8 At the time of admission of a new partner which of the following items is shown on the debit side of 'Revaluation Account'? 1
- (A) Decrease in the value of liabilities
(B) Loss on revaluation
(C) Unrecorded liabilities
(D) Unrecorded assets
- नए साझादेर के प्रवेश के समय निम्न में से कौन सी मद 'पुनर्मूल्यांकन खाते' के नाम पक्ष में दर्शायी जाती है ?
- (A) देयताओं के मूल्य में कमी
(B) पुनर्मूल्यांकन में हानि
(C) गैर-लेखांकित देयताएं
(D) गैर-लेखांकित संपत्तियां
- 9 Gaining Ratio is calculated as: 1
- (A) New Profit sharing ratio – Sacrificing ratio
(B) Sacrificing ratio – New Profit sharing ratio
(C) New Profit sharing ratio – Old Profit sharing ratio
(D) Old Profit sharing ratio – Sacrificing ratio
- अधिलाभ अनुपात की गणना की जाती है:
- (A) नया लाभ विभाजन अनुपात – त्याग अनुपात
(B) त्याग अनुपात – नया लाभ विभाजन अनुपात
(C) नया लाभ विभाजन अनुपात – पुराना लाभ विभाजन अनुपात
(D) पुराना लाभ विभाजन अनुपात – त्याग अनुपात

- 10 When Actual profit of a firm is ₹ 75,000; Normal profit is ₹ 50,000 and Goodwill is calculated by 3 years purchase of super profit, then Goodwill will be: 1

(A) ₹ 1,50,000 (B) ₹ 2,25,000
(C) ₹ 50,000 (D) ₹ 75,000

जब फर्म का वास्तविक लाभ ₹ 75,000 है; साधारण लाभ ₹ 50,000 है तथा ख्याति की गणना अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के द्वारा की जानी है, तो ख्याति होगी:

(A) ₹ 1,50,000 (B) ₹ 2,25,000
(C) ₹ 50,000 (D) ₹ 75,000

- 11 When existing goodwill in the books is written off at the time of admission of a partner, it is transferred to old Partners' Capital Accounts in which ratio? 1

(A) Gaining ratio (B) Old Profit sharing ratio
(C) New Profit sharing ratio (D) Sacrificing ratio

जब नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में विद्यमान ख्याति की राशि को अपलिखित करना हो, तो उसे पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है?

(A) अधिलाभ अनुपात (B) पुराने लाभ विभाजन अनुपात
(C) नए लाभ विभाजन अनुपात (D) त्याग अनुपात

- 12 At the time of forfeiture of shares: 1

(A) Share capital account is credited with the called up value of shares forfeited.
(B) Share capital account is debited with the nominal (face) value of shares forfeited.
(C) Share capital account is neither debited nor credited.
(D) Share capital account is debited with the called-up value of share forfeited.

अंशों की जब्ती के समय:

(A) अंश पूँजी खाते को जब्त अंशों पर याचित राशि से जमा पक्ष में लेखा किया जाता है।
(B) अंश पूँजी खाते को जब्त अंशों की सम (नाममात्र) मूल्य की राशि से नाम पक्ष में लेखा किया जाता है।
(C) अंश पूँजी खाते के न तो नाम पक्ष में और न ही जमा पक्ष में कोई लेखा किया जाता है।
(D) अंश पूँजी खाते को जब्त अंशों के याचित मूल्य से नाम पक्ष में लेखा किया जाता है।

13 When shares are issued for a price more than its face value, it is called: 1

- (A) Issue of shares at profit (B) Issue of shares at premium
(C) Issue of shares at discount (D) Issue of shares at loss

जब अंशों को उनके सम मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जाता है, तो यह कहलाता है:

- (A) अंशों का लाभ पर निर्गमन (B) अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन
(C) अंशों का बट्टे पर निर्गमन (D) अंशों का हानि पर निर्गमन

14 An equity share of ₹ 10 which is issued at par and on which the company has 1
called up ₹ 8 but received ₹ 6, has been forfeited by the company. The share
forfeited account will be credited by :

- (A) ₹ 8 (B) ₹ 10
(C) ₹ 6 (D) ₹ 2

₹ 10 के एक समता अंश को जिसे सम मूल्य पर निर्गमित किया गया है, जिस पर ₹ 8 कम्पनी द्वारा
याचित किए गए परंतु ₹ 6 का ही भुगतान प्राप्त हुआ, कम्पनी द्वारा जब्त कर लिया गया। अंश जब्ती
खाते के जमा पक्ष में लिखी जाने वाली राशि होगी:

- (A) ₹ 8 (B) ₹ 10
(C) ₹ 6 (D) ₹ 2

15 Fill in the blanks: 1×2

On cash basis of accounting revenue is recognised only on receipt of _____
and expenses are recorded as incurred when they are _____.

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:

रोकड़ आधारित लेखांकन में _____ की प्राप्ति ही आगम माना जाता है और व्ययों का खर्च
के रूप में अभिलेखन उनके _____ पर किया जाता है।

16 Give one word answer for the following: 1×2

- (i) The explanation of journal entry is known as:
(ii) Which accounts always have a debit balance?

निम्नलिखित के लिए एक शब्द में उत्तर दें:

- (i) रोजनामचा प्रविष्टि की व्याख्या जानी जाती है:
(ii) किन खातों के शेष सदैव नाम पक्ष में होते हैं?

17 The mostly used input devices other than scanner are _____ and _____. 1×2
स्केनर के अतिरिक्त अधिकांशतः प्रयोग में लाये जाने वाले निवेश (इनपुट) उपकरण _____ और _____ हैं।

18 Give one word answer to the following: 1×2

(i) When the transaction has been recorded but an error is committed in the process of recording, this type of error is called -

(ii) The software that is designed and develop to meet user specific needs is -
निम्नलिखित के उत्तर एक शब्द में दीजिए:

(i) जब एक लेन-देन का लेखा हो जाता है परंतु लेखा करने की प्रक्रिया के दौरान त्रुटि हो जाए, तो इस प्रकार की अशुद्धि कहलाएगी -

(ii) ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन एवं विकसित किया जाए -

19 Give answer in one word: 1×2

(i) In the absence of information at the time of retirement, the remaining partners take the retiring partner's share in which ratio?

(ii) In case of retirement of a partner the goodwill is adjusted by debiting which account?

एक शब्द में उत्तर दीजिए:

(i) सेवा निवृत्ति पर सूचना के अभाव में सेवानिवृत्त साझेदार के लाभ के भाग को शेष साझेदार किस अनुपात में लेते हैं?

(ii) एक साझेदार की सेवानिवृत्ति की स्थिति में ख्याति को समायोजित करने के लिए किस खाते के नाम पक्ष में लेखा किया जाता है?

20 Fill in the blanks: 1×2

(i) Under weighted average method of valuation of goodwill weighted average profit is _____.

(ii) When a partner transfer his/her interest in the firm to a third party it is called dissolution of a partnership firm by _____.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

(i) ख्याति के मूल्यांकन की भारत औसत विधि के तहत भारत औसत लाभ _____ है।

(ii) जब एक साझेदार फर्म में अपने हित को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दे, तो यह साझेदारी फर्म का _____ द्वारा समापन कहलाता है।

21 Write the names of two affected accounts in the following transactions while preparing accounting equation: **1×4**

- (i) Goods purchased in cash for ₹ 60,000.
- (ii) Received commission of ₹ 4,000.
- (iii) Received a cheque from Amit.
- (iv) Goods sold for ₹ 10,000 in cash.

लेखांकन समीकरण तैयार करते समय निम्नलिखित लेन-देनों से प्रभावित होने वाले दो खातों के नाम लिखिए:

- (i) ₹ 60,000 का माल नकद क्रय किया।
- (ii) ₹ 4,000 का कमीशन प्राप्त किया।
- (iii) अमित से एक चेक प्राप्त किया।
- (iv) ₹ 10,000 का माल नकद विक्रय किया।

22 Give names of accounting errors in the following transactions: **1×4**

- (i) Sold of old furniture to Ram for ₹ 1,000 not recorded.
- (ii) Goods purchased from Amit for ₹ 520 recorded as ₹ 250 in the Purchases Book.
- (iii) Paid ₹ 12,000 for the installation of machinery debited to wages account.
- (iv) Repairs of ₹ 300 for building debited to building account.

निम्नलिखित लेनदेनों में लेखांकन अशुद्धियों के नाम बताइये:

- (i) राम को बेचे गए ₹ 1,000 के पुराने फर्नीचर का लेखा नहीं किया गया।
- (ii) अमित से ₹ 520 का क्रय किया माल का लेखा क्रय बही में ₹ 250 से किया गया।
- (iii) मशीनरी की स्थापना पर भुगतान किए गए ₹ 12,000 का लेखा मजदूरी खाते के नाम पक्ष में कर दिया गया।
- (iv) भवन की मरम्मत के ₹ 300 का लेखा भवन खाते के नाम पक्ष में किया गया।

23 Give answer in one word to the following questions:

1×4

- (i) Net profit of a firm for the year ended 31/03/2024 was ₹ 21,000. The manager is allowed a commission of 5% on net profit after charging such commission. Calculate the manager's commission.
- (ii) While preparing financial statements of a trading concern provision for doubtful debts in excess of the required provision will be credited to which account?
- (iii) While preparing financial statements of a Not-For-Profit Organisation Life membership fee is considered which type of receipt?
- (iv) While preparing Receipts and Payments Account and Income and Expenditure Account of a Not-For-Profit-Organisation where 'Endowment fund' is shown?

निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए:

- (i) ता. 31/03/2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक फर्म का शुद्ध लाभ ₹ 21,000 था। शुद्ध लाभ पर कमीशन प्रभारित करने के बाद प्रबंधक को 5% कमीशन दिया जाना स्वीकृत हुआ है। प्रबंधक के कमीशन की गणना कीजिए।
- (ii) एक व्यापारिक उद्यम के वित्तीय विवरण तैयार करते समय संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान की राशि आवश्यक प्रावधान राशि से अधिक हो, तो उसे किस खाते के जमा पक्ष में दर्शाया जाएगा?
- (iii) एक गैर-लाभकारी संगठन के वित्तीय विवरण तैयार करते समय 'आजीवन सदस्यता शुल्क' को किस प्रकार की प्राप्ति माना जाता है?
- (iv) एक गैर-लाभकारी संगठन का 'प्राप्ति व भुगतान खाता' तथा 'आय व व्यय खाता' तैयार करते समय 'बंदोबस्त निधि' को कहां दिखाया जाता है?

24 Give answer in one word for the following: 1×4

- (i) Forfeiture of shares results in the reduction of -
- (ii) At the time of disclosure of 'share capital' in company's Balance Sheet securities premium reserve is shown under -
- (iii) The call money demand by the company if not paid by a share holder will be debited to which account?
- (iv) A share of ₹ 100 on which ₹ 60 has been paid, is forfeited, can be re-issued at the minimum price of -

निम्नलिखित के लिए एक शब्द में उत्तर दीजिए:

- (i) अंशों की जब्ती का परिणाम किसमें कमी लाता है ?
- (ii) कम्पनी के स्थिति विवरण में 'अंश पूँजी' के प्रकटीकरण के समय प्रतिभूति प्रीमियम संचय को किसके अन्तर्गत दर्शाया जाता है ?
- (iii) यदि कम्पनी द्वारा याचित याचना राशि का भुगतान अंशधारी द्वारा नहीं किया जाता तो उसे किस खाते के नाम पक्ष में दर्शाया जाएगा ?
- (iv) ₹ 100 का एक अंश जिस पर ₹ 60 का भुगतान हो चुका है, यदि जब्त किया गया, तो उसे कम से कम किस मूल्य पर पुनर्निर्गमित किया जा सकता है ?

25 Explain the following terms: 2

- (a) Capital Receipts
- (b) Revenue Receipts

निम्नलिखित पदों को समझाइये:

- (a) पूँजीगत प्राप्तियां
- (b) आगम प्राप्तियां

26 (i) Explain 'Average profit method' of valuation of goodwill. 2

ख्याति मूल्यांकन की 'औसत लाभ विधि' समझाइये।

OR / अथवा

(ii) Explain the following factors affecting goodwill:

- (a) Quality
- (b) Market situation

ख्याति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को समझाइये:

- (a) गुणवत्ता
- (b) बाज़ार की स्थिति

- 27 (i) Explain with the help of an example how share of profit upto the date of death of a partner is calculated on 'Time Basis'. 2

एक उदाहरण की सहायता से समझाइये कि 'समय आधार' पर मृत साझेदार की मृत्यु की तिथि तक लाभ में उसके भाग की गणना कैसे की जाएगी।

OR / अथवा

- (ii) State any two situations when a partnership firm can be compulsorily dissolved.

ऐसी किन्हीं दो स्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें साझेदारी फर्म का अनिवार्य रूप से समापन हो सकता है।

- 28 (i) What is meant by 'Under subscription' and 'Over subscription'? 2

‘अल्प अभिदान’ और ‘आधिक्य अभिदान’ का क्या अर्थ है ?

OR / अथवा

- (ii) Give meaning of 'calls-in-advance'. Also state at what rate interest on calls-in-advance is paid.

‘पूर्व प्राप्त याचना’ का अर्थ दीजिए। साथ ही पूर्व प्राप्त याचना राशि पर दिए जाने वाले ब्याज दर का उल्लेख कीजिए।

- 29 (i) Explain the need of preparing Profit and Loss Account. 3

लाभ-हानि खाता तैयार करने की आवश्यकता समझाइये।

OR / अथवा

- (ii) Explain any three points of importance of financial statements.

वित्तीय विवरणों के महत्व के कोई तीन बिंदु समझाइये।

- 30 (i) From the following information for the year ending 31st March 2021, calculate cost of goods sold and gross profit: 3

	₹
Opening stock	60,000
Purchases	5,32,000
Wages	40,000
Sales	8,00,000
Closing stock	82,000

निम्नलिखित सूचना से 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बेचे माल की लागत एवं सकल लाभ की गणना कीजिए:

	₹
आरंभिक स्टॉक	60,000
क्रय	5,32,000
मजदूरी	40,000
विक्रय	8,00,000
अंतिम स्टॉक	82,000

OR / अथवा

- (ii) Calculate the amount of 'Rent' to be shown in the Income and Expenditure Account for the year ending 31st March, 2025:

	₹
(a) Rent paid in the current year	24,000
(b) Rent due in current year	32,000
(c) Rent paid last year for this year	2,400
(d) Rent due of last year paid in this year	8,000
(e) Advance rent paid for next year in this year	6,400

31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय-व्यय खाते में दर्शाई जाने वाली 'किराए' की राशि की गणना कीजिए:

	₹
(a) चालू वर्ष में भुगतान किया गया किराया	24,000
(b) चालू वर्ष में अदत्त किराया	32,000
(c) पिछले वर्ष में इस वर्ष के लिए भुगतान किया गया किराया	2,400
(d) पिछले वर्ष का देय किराया जिसका भुगतान इस वर्ष में किया	8,000
(e) इस वर्ष में अगले वर्ष के लिए किराये का अग्रिम भुगतान किया	6,400

- 31 (i) What is meant by 'Dissolution of partnership' and 'Dissolution of partnership firm'? State two conditions when a partnership firm is dissolved by 'Agreement'. 3

‘साझेदारी के समापन’ और ‘साझेदारी फर्म के समापन’ का क्या अर्थ है? उन दो स्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें एक साझेदारी फर्म का समापन ‘समझौते’ के द्वारा होता है।

OR / अथवा

- (ii) Give meaning of sacrificing ratio. Why and how this ratio is calculated?

त्याग अनुपात का अर्थ दीजिए। इस अनुपात की गणना क्यों और कैसे की जाती है?

- 32 How the unpaid amount of share allotment is calculated, when shares are allotted on pro-rata basis and allotment money is not paid by the shareholder? Explain. 3

यदि अंशों का आबंटन आनुपातिक आधार पर किया गया हो और अंशधारक द्वारा आबंटन पर देय राशि का भुगतान नहीं किया जाए, तो अंश आबंटन की अदत्त राशि की गणना कैसे की जाएगी? समझाइये।

- 33 (i) Explain the options available to a company incase of 'over subscription'. 3

अंशों पर ‘आधिक्य अभिदान’ की स्थिति में एक कम्पनी को उपलब्ध विकल्पों को समझाइए।

OR / अथवा

- (ii) Explain any three purposes for which share premium money can be utilised.

उन तीन उद्देश्यों को समझाइए जिनके लिए प्रतिभूति प्रीमियम राशि का उपयोग किया जा सकता है।

- 34 (i) From the following Trial Balance of Manish, prepare Trading Account, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2024 and a Balance Sheet as on that date: 5

Trial Balance of Manish as on 31st March, 2024

Particulars	Dr. Amount (₹)	Cr. Amount (₹)
Capital		50,000
Drawings	20,000	
Debtors and Creditors	24,000	16,000
Bank Loan (12% p.a.)	-	10,000
Interest on Loan	800	
Opening stock	26,700	
Furniture and Fixtures	33,900	
Carriage Inwards	11,000	
Salaries	22,000	
Purchases and Sales	50,000	1,31,000
Commission	-	9,000
Cash and Bank	27,600	
Total	2,16,000	2,16,000

Additional Informations:

- (i) Closing stock on 31/03/2024 was ₹ 36,000.
- (ii) Interest of ₹ 400 on Bank Loan has due but not paid.
- (iii) A provision for doubtful debts is to maintained @ 5% on debtors.

मनीष के निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता, लाभ व हानि खाता और उसी तिथि को स्थिति विवरण तैयार कीजिए:

31 मार्च, 2024 को मनीष की तलपट

विवरण	नाम राशि (₹)	जमा राशि (₹)
पूँजी		50,000
आहरण	20,000	
देनदार और लेनदार	24,000	16,000
बैंक ऋण (12% प्रति वर्ष)	-	10,000
ऋण पर ब्याज	800	
आरंभिक स्टॉक	26,700	
फर्नीचर व फिक्सचर्स	33,900	
आवक माल गाड़ीभाड़ा	11,000	
वेतन	22,000	
क्रय एवं विक्रय	50,000	1,31,000
कमीशन	-	9,000
रोकड़ एवं बैंक	27,600	
कुल	2,16,000	2,16,000

अतिरिक्त सूचना:

- ता. 31/03/2024 को अंतिम स्टॉक ₹ 36,000 था।
- बैंक ऋण पर ₹ 400 का ब्याज देय हो चुका है लेकिन वह अभी दिया नहीं है।
- देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाया जाना है।

OR / अथवा

- (ii) From the following Receipts and Payments Account of R.K. Sports Club, prepare Income and Expenditure Account for the year ending 31st March, 2024.

**Receipts and Payments Account of R.K. Sports Club
for the year ending 31st March, 2024**

Receipts	Amount (₹)	Payments	Amount (₹)
Balance b/d	5,500	Salaries	7,000
Interest	600	Investments	8,000
Miscellaneous receipt	3,000	Stationery	5,200
Entrance fees	2,000	Furniture	10,000
Sale of old furniture (book value ₹ 2,000)	500	Balance c/d	6,400
Subscription	15,000		
Donation for building	10,000		
	36,600		36,600

Additional Information :

- (a) Subscription includes outstanding subscription of ₹ 2,500 for the year 2022-23 and ₹ 2,000 for the year 2024-25.
- (b) Salary outstanding is ₹ 1,200.
- (c) Interest accrued but not received is ₹ 200.
- (d) Provide depreciation on furniture @ 10%.

आर.के. स्पोर्ट्स क्लब के निम्नलिखित प्राप्ति एवं भुगतान खाते से 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता तैयार कीजिए:

आर. के. स्पोर्ट्स क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष का

प्राप्तियां	राशि (₹)	भुगतान	राशि (₹)
शेष आगे लाये	5,500	वेतन	7,000
ब्याज	600	निवेश	8,000
विविध प्राप्तियां	3,000	स्टेशनरी	5,200
प्रवेश शुल्क	2,000	फर्नीचर	10,000
पुराने फर्नीचर का विक्रय (पुस्तक मूल्य ₹ 2,000)	500	शेष आगे ले गये	6,400
चंदा	15,000		
भवन के लिए दान	10,000		
	36,600		36,600

अतिरिक्त सूचना:

- चंदे में वर्ष 2022-23 का चंदा ₹ 2,500 और वर्ष 2024-25 का ₹ 2,000 का बकाया चंदा सम्मिलित है।
- अदत्त वेतन ₹ 1,200 है।
- उपार्जित परंतु प्राप्त नहीं ब्याज ₹ 200 है।
- फर्नीचर पर 10% की दर से ह्रास लगाया जाना है।

- 35 M and N were partners in a firm and sharing profits in the ratio of 3:1. 5
Their Balance Sheet as on 31/03/2024 was as follows:

Balance Sheet of M and N as on 31st March, 2024

Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)
Creditors	28,000	Cash	50,000
Bills payable	40,000	Debtors	60,000
Outstanding salary	2,000	Stock	40,000
Capital Accounts:		Plant	1,00,000
M 2,00,000		Land and Building	1,50,000
N 1,30,000	3,30,000		
	4,00,000		4,00,000

On the above date 'O' was admitted as partner for 1/4th share in profits on the following terms:

- 'O' will bring ₹ 1,50,000 as his capital and ₹ 90,000 as his share of premium for goodwill.
- Plant is to be appreciated to ₹ 1,30,000 and the value of land and building is to be appreciated by 5%.
- Stock is overvalued by ₹ 6,000.
- A provision for bad and doubtful debts is to be created at 5% on debtors.
- There were unrecorded creditors of ₹ 4,500.

Prepare Revolution Account and Partners' Capital Accounts.

एम और एन एक फर्म में साझेदार हैं एवं लाभों का विभाजन 3:1 के अनुपात में करते हैं।
ता. 31/03/2024 को उनका स्थिति-विवरण निम्नलिखित था:

एम और एन का स्थिति विवरण 31 मार्च, 2024 का

देयताएं	राशि (₹)	परिसंपत्तियां	राशि (₹)
लेनदार	28,000	रोकड़	50,000
देय विपन्न	40,000	देनदार	60,000
अदत्त वेतन	2,000	स्टॉक	40,000
पूँजी खाते:		प्लांट	1,00,000
एम 2,00,000		भूमि व भवन	1,50,000
एन 1,30,000	3,30,000		
	4,00,000		4,00,000

उपरोक्त तिथि को 'ओ' को लाभों में 1/4 भाग के लिए साझेदारी में निम्न शर्तों के साथ प्रवेश दिया गया:

- 'ओ' अपनी पूँजी के रूप में ₹ 1,50,000 व अपने हिस्से की ख्याति प्रीमियम के रूप में ₹ 90,000 लायेगा।
- प्लांट का मूल्य ₹ 1,30,000 तक बढ़ाया जायेगा और भूमि व भवन के मूल्य में 5% की वृद्धि की जाएगी।
- स्टॉक का मूल्यांकन ₹ 6,000 से ज्यादा किया गया है।
- देनदारों पर 5% की दर से डूबत व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाना है।
- लेखा नहीं किया ऐसे लेनदार ₹ 4,500 के थे।

पुनर्मूल्यांकन खाता व साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कीजिए।

- 36 (i) Keshav Ltd. issued a prospectus for inviting applications from the public for 20,000 equity shares of ₹ 10 each. The amounts were payable as follows: 5

On Application ₹ 2 per share

On Allotment ₹ 3 per share

On first and final call the balance

Applications were received for 24,000 equity shares and allotment was made as follows:

Full allotment on applications for 16,000 shares.

No applications for 6,000 shares - 4,000 shares were allotted.

No allotment was made on applications for 2,000 shares.

All money due was called and received except call money on 200 shares held by Hitesh. These shares were forfeited.

Pass necessary journal entries in the books of Keshav Ltd.

केशव लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 20,000 समता अंशों हेतु जनता से आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रविवरण जारी किया। राशियां निम्न प्रकार से देय थी:

आवेदन पर ₹ 2 प्रति अंश

आबंटन पर ₹ 3 प्रति अंश

प्रथम व अंतिम याचना पर शेष

24,000 समता अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और आबंटन निम्न प्रकार हुआ:

16,000 अंश आवेदकों को पूर्ण आबंटन

6,000 अंश आवेदकों को 4,000 अंशों का आबंटन

2,000 अंशों के आवेदनों पर कोई आबंटन नहीं

सभी देय धनराशि मांग ली गई और प्राप्त हो गई, केवल हितेश द्वारा धारित 200 अंशों पर याचना राशि को छोड़कर। इन अंशों को जब्त कर लिया गया।

केशव लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए।

OR / अथवा

- (ii) M.K. Cars Ltd. issued 2,00,000 shares of ₹ 20 each at a premium of ₹ 5 per share. Payable as follows:

On application	₹ 8 (including ₹ 2 premium) per share
On allotment	₹ 16 (including ₹ 3 premium) per share
On first and final call	the balance

Applications were received for 2,00,000 shares and allotment was made to all applicants. All money due was called and received except first and final call money on 5,000 shares which were forfeited.

Pass necessary journal entries in the books of M.K. Cars Ltd.

एम.के. कार्स लिमिटेड ने ₹ 20 प्रत्येक के 2,00,000 अंशों को ₹ 5 प्रत्येक के प्रीमियम पर निर्गमित किया, जो निम्न प्रकार देय थी:

आवेदन पर	₹ 8 (₹ 2 प्रीमियम सम्मिलित) प्रति अंश
आबंटन पर	₹ 16 (₹ 3 प्रीमियम सम्मिलित) प्रति अंश
प्रथम व अंतिम याचना	शेष

2,00,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदकों को आबंटन कर दिया गया। सभी देय राशियां मंगवा ली गई व प्राप्त हुई। केवल 5,000 अंशों को छोड़कर जिन पर प्रथम व अंतिम याचना राशि प्राप्त नहीं हुई, उन्हें जब्त कर लिया गया।

एम.के. कार्स लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए।

SECTION – B

खण्ड – B

(Attempt any one of the Optional Modules)

(वैकल्पिक मॉड्यूलों में कोई एक का उत्तर दीजिए)

OPTIONAL MODULE – I

वैकल्पिक मॉड्यूल – I

(Analysis of Financial Statements)

(वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

37 If current-ratio is 2:1, which of the following transactions will improve the current ratio? 1

- (A) Payment of ₹ 10,000 to creditors.
- (B) Received ₹ 5,000 from debtors.
- (C) Purchased goods for ₹ 8,000.
- (D) Purchase of fixed assets by taking long term loan.

यदि चालू अनुपात 2:1 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लेनदेन चालू अनुपात में वृद्धि करेगा?

- (A) लेनदारों को ₹ 10,000 का भुगतान।
- (B) देनदारों से ₹ 5,000 की प्राप्ति।
- (C) ₹ 8,000 के माल का क्रय।
- (D) दीर्घावधि ऋण से स्थायी संपत्तियों का क्रय।

38 While preparing cash flow statement 'Dividend paid on shares' is categorised under which of the following activities? 1

- (A) Operating activities
- (B) Investing activities
- (C) Financing activities
- (D) Both operating and financing activities

रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय 'अंशों पर लाभांश का भुगतान' को निम्नलिखित क्रियाओं में से किस श्रेणी में रखा जाता है?

- (A) परिचालन क्रियाएं
- (B) निवेश क्रियाएं/विनियोजन क्रियाएं
- (C) वित्तीयन क्रियाएं
- (D) प्रचालन व वित्तीयन क्रियाएं दोनों

39 Which of the following is considered as 'Cash Equivalents' while preparing cash flow statement? 1

- (A) Depreciation (B) Dividend received
(C) Gain on sale of land (D) Marketable securities

रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय निम्नलिखित में से किसे 'रोकड़ तुल्य' माना जाता है ?

- (A) मूल्यहास (B) प्राप्त लाभांश
(C) भूमि के विक्रय पर अधिलाभ (D) विपणनीय प्रतिभूतियां

40 If Equity share capital is ₹ 2,00,000; General Reserve is ₹ 50,000; Debentures are ₹ 5,00,000 and Trade creditors are ₹ 50,000, then the debt-equity ratio will be: 1

- (A) 2.2:1 (B) 2:1
(C) 2.5:1 (D) 5:1

यदि समता अंश पूँजी ₹ 2,00,000 है; सामान्य अनामत ₹ 50,000 है; ऋणपत्र ₹ 5,00,000 हैं और व्यापारिक लेनदार ₹ 50,000 हैं, तो ऋण-समता अनुपात होगा:

- (A) 2.2:1 (B) 2:1
(C) 2.5:1 (D) 5:1

41 If cost of Revenue from operations is ₹ 1,80,000; Gross Profit is ₹ 50,000; Opening inventory is ₹ 29,000 and Closing inventory is ₹ 31,000. 1

The Inventory Turnover ratio will be:

- (A) 6 times (B) 3 times
(C) 2.16 times (D) 4.3 times

यदि प्रचालन से आगम की लागत ₹ 1,80,000 है; सकल लाभ ₹ 50,000 है; आरंभिक स्कंध ₹ 29,000 है और अंतिम स्कंध ₹ 31,000 है, तो स्कंध (स्टॉक) आवर्त अनुपात होगा:

- (A) 6 बार/गुणा (B) 3 बार/गुणा
(C) 2.16 बार/गुणा (D) 4.3 बार/गुणा

42 Which of the following is not an item of cash flows from operating activities? 1

- (A) Cash payment to employees
- (B) Cash payment to acquire shares
- (C) Refund of income tax
- (D) Cash payment to suppliers for goods

निम्नलिखित में से कौन सी मद परिचालन क्रियाओं में रोकड़ का प्रवाह नहीं है ?

- (A) कर्मचारियों को नकद भुगतान
- (B) अंशों के अधिग्रहण के लिए नकद भुगतान
- (C) आयकर की वापसी (रिफंड)
- (D) माल पूर्तिकर्ताओं को नकद भुगतान

43 Complete the following sentences : 1×2

- (i) The term liquidity refers the ability of the company to meet its -
- (ii) A high 'Trade Payable Turnover Ratio' indicates -

निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए:

- (i) तरलता शब्द का तात्पर्य है कम्पनी की वह क्षमता जिससे वह पूरा कर सके अपने -
- (ii) उच्च 'देय व्यापार आवर्त अनुपात' संकेत करता है -

44 Explain the treatment of proposed dividend in cash flow statement. 2

रोकड़ प्रवाह विवरण में प्रस्तावित लाभांश के व्यवहार को समझाइये।

45 Calculate Net Profit Ratio from the following: 2

Amount (₹)

Net Profit 65,000

Sales 8,40,000

Sales Returns 40,000

निम्नलिखित से शुद्ध लाभ अनुपात की गणना कीजिए:

राशि (₹)

शुद्ध लाभ 65,000

विक्रय 8,40,000

विक्रय वापसी 40,000

- 46 Explain following advantages of 'Ratio Analysis': 3
- Useful in analysis of financial statements
 - Useful in simplifying accounting figures
 - Useful for forecasting
- ‘अनुपात विश्लेषण’ के निम्नलिखित लाभों को समझाइये:
- वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में उपयोगी
 - लेखांकन मदों (फिगर्स) के सरलीकरण में उपयोगी
 - भविष्यवाणी के लिए उपयोगी

- 47 From the following Balance Sheets of Kamni Medical College & Research Centre Ltd. as on 31st March 2024 and 31st March 2023, calculate cash flow from Operating activities, from Investment activities and from financing activities : 5

Particulars	Note No.	31 st March 2024 (₹)	31 st March 2023 (₹)
I Equity and liabilities			
1 Shareholders' funds :			
(a) Share capital	1	16,00,000	10,40,000
(b) Reserves and Surplus	2	5,50,000	2,60,000
2 Non-current liabilities :			
Long-term borrowing : 10% Debentures		4,00,000	6,00,000
3 Current liabilities			
Trade payables		4,50,000	1,00,000
Total		30,00,000	20,00,000
II Assets			
1 Non-current assets :			
Fixed assets :		20,00,000	15,00,000
2 Current assets			
(a) Inventories		3,00,000	2,00,000
(b) Trade receivables		2,00,000	1,00,000
(c) Cash and cash equivalents		5,00,000	2,00,000
Total		30,00,000	20,00,000

Notes to Accounts

Particulars	31 st March 2024 (₹)	31 st March 2023 (₹)
1 Share capital :		
Equity share capital	15,00,000	10,00,000
7% Preference share capital	1,00,000	40,000
	16,00,000	10,40,000
2 Reserve and Surplus		
Surplus: i.e., Balance in statement of P&L	1,50,000	2,00,000
General reserve	4,00,000	60,000
	5,50,000	2,60,000

कामनी मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर लिमिटेड के निम्न दिए गए 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 के स्थिति विवरणों से परिचालन क्रियाओं से, विनियोजन क्रियाओं से और वित्तीयन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए :

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2024 (₹)	31 मार्च 2023 (₹)
I समता एवं देयताएं			
1 अंशधारकों के कोष :			
(a) अंश पूँजी	1	16,00,000	10,40,000
(b) संचय एवं आधिक्य	2	5,50,000	2,60,000
2 गैर-चालू देयताएं			
दीर्घकालिक ऋण : 10% ऋणपत्र		4,00,000	6,00,000
3 चालू देयताएं :			
व्यापारिक देय		4,50,000	1,00,000
कुल		30,00,000	20,00,000

II परिसंपत्तियां			
1 गैर-चालू संपत्तियां :			
स्थायी संपत्तियां		20,00,000	15,00,000
2 चालू संपत्तियां :			
(a) स्कंध		3,00,000	2,00,000
(b) व्यापारिक प्राप्य		2,00,000	1,00,000
(c) रोकड़ व रोकड़ तुल्य		5,00,000	2,00,000
कुल		30,00,000	20,00,000

खातों पर टिप्पणियां:

विवरण	31 मार्च 2024 (₹)	31 मार्च 2023 (₹)
1 अंश पूँजी :		
समता अंश पूँजी	15,00,000	10,00,000
7% पूर्वाधिकार अंश पूँजी	1,00,000	40,000
	16,00,000	10,40,000
2 संचय एवं आधिक्य		
आधिक्य : अर्थात् लाभ हानि विवरण में शेष	1,50,000	2,00,000
सामान्य संचय	4,00,000	60,000
	5,50,000	2,60,000

OPTIONAL MODULE – II

वैकल्पिक मॉड्यूल – II

(Application of Computers in Financial Accounting)

(कम्प्यूटर का वित्तीय लेखांकन में उपयोग)

37 Basic pay earned by an employee is calculated on the basis of: 1

- (A) Total number of days in a month
- (B) Dearness allowance $\times$ Total no. of days in a month
- (C) Number of effective days present
- (D) House rent allowance $\times$ Number of effective days in a month

एक कर्मचारी द्वारा अर्जित मूल वेतन की गणना का आधार है:

- (A) एक माह में कुल दिनों की संख्या
- (B) मंहगाई भत्ता $\times$ एक माह में कुल दिनों की संख्या
- (C) उपस्थित प्रभावी दिनों की संख्या
- (D) आवास भाड़ा भत्ता $\times$ एक माह में प्रभावी दिनों की संख्या

38 While modifying a chart which of the following is not a step of modify the 'labels and titles'? 1

- (A) Click the 'Chart'.
- (B) On the 'Layout' tab, click the 'Chart Title' or the 'Data Labels' button.
- (C) Change the 'Title' and click 'Enter'.
- (D) Click the switch Row/Column button on the 'Design' tab.

एक चार्ट में संशोधन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा चरण 'लेबल्स एवं टाइटल्स' के संशोधन का नहीं है?

- (A) 'चार्ट' पर क्लिक कीजिए।
- (B) 'ले-आउट' (Layout) टेब पर 'चार्ट टाइटल' अथवा 'डेटा लेबल्स' बटन क्लिक करें।
- (C) 'टाइटल' को बदले व 'एन्टर' को क्लिक करें।
- (D) 'डिजाइन' टेब पर स्विच रॉ/कॉलम बटन पर क्लिक करें।

39 While defining the structure of the 'table' in Access 'Hyperlink' is used for: **1**

- (A) Storing comments.
- (B) Storing numbers and are subjected to arithmetical calculations.
- (C) Storing universal resource locators and email addresses.
- (D) Entering numeric data automatically.

एक्सेस में एक 'सारणी' की संरचना को परिभाषित करते समय 'हाइपरलिंक' का प्रयोग होता है:

- (A) सम्मति (कमेंट्स) में भंडारण के लिए।
- (B) अंकगणितीय गणनाओं पर निर्भर होनेवाली संख्याओं के भंडारण के लिए।
- (C) यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर व ईमेल एड्रेस के भंडारण के लिए।
- (D) संख्यात्मक डाटा को स्वतः प्रविष्ट करने के लिए।

40 Excel worksheet supports the functions of calculating depreciation on assets by : **1**

- (A) Straight line method of depreciation
- (B) Diminishing balance method of depreciation
- (C) Sum of years digit method of depreciation
- (D) All of the above

एक्सल वर्कशीट संपत्तियों पर ह्रास की गणना के प्रकार्यों का समर्थन करती है:

- (A) ह्रास की सरल रेखा विधि द्वारा
- (B) ह्रास की ह्रासित (घटते) शेष विधि द्वारा
- (C) ह्रास की द्विह्रासित शेष विधि द्वारा
- (D) उपरोक्त सभी के द्वारा

- 41** In Excel software Pie chart can not plot more than: **1**
- (A) 7 categories (B) 10 categories
(C) 8 categories (D) 12 categories
- एक्सल साफ्टवेयर में पाई चार्ट किससे अधिक अंकित (plot) नहीं कर सकता ?
- (A) 7 श्रेणियां (B) 10 श्रेणियां
(C) 8 श्रेणियां (D) 12 श्रेणियां
- 42** Which of the following is not an element in the process of structuring a data base? **1**
- (A) Requirement analysis (B) Object linking and embedding
(C) Conceptual design (D) Logical design
- निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस की संरचना प्रक्रिया का चरण नहीं है ?
- (A) आवश्यकता विश्लेषण (B) ओब्जेक्ट लिंकिंग एंड एंबेडिंग
(C) संकल्पित रूपरेखा (D) तार्किक रूपरेखा
- 43** The net amount of salary is the difference between _____ and _____. **1×2**
- शुद्ध वेतन की राशि _____ व _____ के बीच का अंतर है।
- 44** Explain any two advantages of using graphs. **2**
- ग्राफ के प्रयोग के कोई दो लाभों को समझाइये।
- 45** Explain the following components of deductions in payroll accounting: **2**
- (a) Provident fund
(b) Tax Deduction at Source
- पेरोल लेखांकन में कटौती के निम्नलिखित घटकों को समझाइये:
- (a) भविष्य निधि
(b) उद्गम स्थान पर कर कटौती

46 State the steps for creating a chart using Charts/Graphs tools in Excel. **3**

एक्सल में चार्ट टूल्स के प्रयोग द्वारा चार्ट/ग्राफ बनाने के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए।

47 Explain any five basic elements of a chart. **5**

एक चार्ट के किन्हीं पाँच मूल अवयवों को समझाइये।

This Question Paper consists of 47 questions and 32 printed pages.

इस प्रश्न-पत्र में 47 प्रश्न तथा 32 मुद्रित पृष्ठ हैं।

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

अनुक्रमांक

Code No. 70/OSS/2

कोड नं.

SET/सेट - **B**

ACCOUNTANCY

लेखांकन

(Principles and Practice of Financial Accounting)

(वित्तीय लेखांकन के सिद्धान्त एवं व्यवहार)

(320)

Day and Date of Examination

(परीक्षा का दिन व दिनांक)

Signature of Invigilators

(निरीक्षकों के हस्ताक्षर)

1. _____

2. _____

General Instructions :

1. Candidate must write his/her Roll Number on the first page of the Question Paper.
2. Please check the Question Paper to verify that the total pages and total number of questions contained in the Question Paper are the same as those printed on the top of the first page. Also check to see that the questions are in sequential order.
3. Making any identification mark in the Answer-Book or writing Roll Number anywhere other than the specified places will lead to disqualification of the candidate.
4. Write your Question Paper Code No. 70/OSS/2, Set-**B** on the Answer-Book.
5. (a) The Question Paper is in English/Hindi medium only. However, if you wish, you can answer in any one of the languages listed below :
English, Hindi, Urdu, Punjabi, Bengali, Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Marathi, Oriya, Gujarati, Konkani, Manipuri, Assamese, Nepali, Kashmiri, Sanskrit and Sindhi.
You are required to indicate the language you have chosen to answer in the box provided in the Answer-Book.
(b) If you choose to write the answer in the language other than Hindi and English, the responsibility for any errors/mistakes in understanding the questions will be yours only.
6. In case of any doubt or confusion in the question paper, the **English** Version will prevail.

सामान्य अनुदेश :

1. परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें।
2. कृपया प्रश्न-पत्र को जाँच लें कि प्रश्न-पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जाँच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में हैं।
3. उत्तर-पुस्तिका में पहचान-चिह्न बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जायेगा।
4. अपनी उत्तर-पुस्तिका पर प्रश्न-पत्र का कोड नं. 70/OSS/2, सेट-**B** लिखें।
5. (क) प्रश्न-पत्र केवल हिंदी/अंग्रेजी माध्यम में है। फिर भी, यदि आप चाहें तो नीचे दी गई किसी एक भाषा में उत्तर दे सकते हैं :
अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगला, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उड़िया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, असमिया, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत और सिंधी।
कृपया उत्तर-पुस्तिका में दिए गए बॉक्स में लिखें कि आप किस भाषा में उत्तर लिख रहे हैं।
(ख) यदि आप हिंदी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उत्तर लिखते हैं तो प्रश्न को समझने में होने वाली त्रुटियों / गलतियों की जिम्मेदारी केवल आपकी होगी।
6. प्रश्न-पत्र में किसी भी प्रकार के संदेह अथवा दुविधा की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा।

ACCOUNTANCY

लेखांकन

(Principles and Practice of Financial Accounting)

(वित्तीय लेखांकन के सिद्धान्त एवं व्यवहार)

(320)

Time : 3 Hours]

समय : 3 घण्टे]

[Maximum Marks : 100

[पूर्णांक : 100

- Note :**
- (i) This question paper consists of **47** questions in all.
 - (ii) **All** questions are compulsory. Internal choices are given wherever required.
 - (iii) Marks are given against each question.
 - (iv) Attempt these questions as per the instructions given for each of the questions.
 - (v) This question paper has **two** section - **Section 'A'** and **Section 'B'**.
 - (vi) **Section 'A'** has **36** questions from Question No. **1 to 36**.
 - (vii) **Section 'B'** has **11** questions from Question No. **37 to 47**.
 - (viii) **Section 'B'** has **two** options. **Optional Module - I** : Analysis of Financial Statements. **Optional Module - II** : Application of Computers in Financial Accounting. Candidates are required to attempt questions from one option only. All questions of an option are compulsory.

- निर्देश :**
- (i) इस प्रश्न-पत्र में कुल **47** प्रश्न हैं।
 - (ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जहाँ आवश्यक है, वहाँ आंतरिक विकल्प दिए गए हैं।
 - (iii) प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दिए गए हैं।
 - (iv) इन प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक प्रश्न में दिए गए निर्देशानुसार दीजिए।
 - (v) इस प्रश्न-पत्र में दो खण्ड हैं - खण्ड '**A**' एवं खण्ड '**B**'।
 - (vi) खण्ड '**A**' में **36** प्रश्न हैं, प्रश्न-संख्या **1** से **36** तक।
 - (vii) खण्ड '**B**' में **11** प्रश्न हैं, प्रश्न-संख्या **37** से **47** तक।
 - (viii) खण्ड '**B**' में दो विकल्प हैं। वैकल्पिक मॉड्यूल - **I** : वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। वैकल्पिक मॉड्यूल - **II** : वित्तीय लेखांकन में कम्प्यूटर का प्रयोग। परीक्षार्थियों को केवल एक विकल्प के ही उत्तर देने हैं। एक विकल्प के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

NOTE / निर्देश :

- (1) Answers of all questions are to be given in the Answer-Book given to you. सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दी गयी उत्तर पुस्तिका में ही लिखें।
- (2) 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 02.15 p.m. From 02.15 p.m. to 02.30 p.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.
इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण दोपहर में 02.15 बजे किया जाएगा। 02.15 बजे से 02.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

SECTION – A

खण्ड – A

- 1 An equity share of ₹ 10 which is issued at par and on which the company has called up ₹ 8 but received ₹ 6, has been forfeited by the company. The share forfeited account will be credited by :

(A) ₹ 8 (B) ₹ 10
(C) ₹ 6 (D) ₹ 2

₹ 10 के एक समता अंश को जिसे सम मूल्य पर निर्गमित किया गया है, जिस पर ₹ 8 कम्पनी द्वारा याचित किए गए परंतु ₹ 6 का ही भुगतान प्राप्त हुआ, कम्पनी द्वारा जब्त कर लिया गया। अंश जब्ती खाते के जमा पक्ष में लिखी जाने वाली राशि होगी:

(A) ₹ 8 (B) ₹ 10
(C) ₹ 6 (D) ₹ 2

- 2 At the time of forfeiture of shares: 1

(A) Share capital account is credited with the called up value of shares forfeited.
(B) Share capital account is debited with the nominal (face) value of shares forfeited.
(C) Share capital account is neither debited nor credited.
(D) Share capital account is debited with the called-up value of share forfeited.

अंशों की जब्ती के समय:

(A) अंश पूँजी खाते को जब्त अंशों पर याचित राशि से जमा पक्ष में लेखा किया जाता है।
(B) अंश पूँजी खाते को जब्त अंशों की सम (नाममात्र) मूल्य की राशि से नाम पक्ष में लेखा किया जाता है।
(C) अंश पूँजी खाते के न तो नाम पक्ष में और न ही जमा पक्ष में कोई लेखा किया जाता है।
(D) अंश पूँजी खाते को जब्त अंशों के याचित मूल्य से नाम पक्ष में लेखा किया जाता है।

- 3 When Actual profit of a firm is ₹ 75,000; Normal profit is ₹ 50,000 and Goodwill is calculated by 3 years purchase of super profit, then Goodwill will be: 1

(A) ₹ 1,50,000 (B) ₹ 2,25,000
(C) ₹ 50,000 (D) ₹ 75,000

जब फर्म का वास्तविक लाभ ₹ 75,000 है; साधारण लाभ ₹ 50,000 है तथा ख्याति की गणना अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के द्वारा की जानी है, तो ख्याति होगी:

(A) ₹ 1,50,000 (B) ₹ 2,25,000
(C) ₹ 50,000 (D) ₹ 75,000

4 At the time of admission of a new partner which of the following items is shown on the debit side of 'Revaluation Account'? 1

- (A) Decrease in the value of liabilities
- (B) Loss on revaluation
- (C) Unrecorded liabilities
- (D) Unrecorded assets

नए साझादेर के प्रवेश के समय निम्न में से कौन सी मद 'पुनर्मूल्यांकन खाते' के नाम पक्ष में दर्शायी जाती है ?

- (A) देयताओं के मूल्य में कमी
- (B) पुनर्मूल्यांकन में हानि
- (C) गैर-लेखांकित देयताएं
- (D) गैर-लेखांकित संपत्तियां

5 In a Trial Balance of a Sole Traders Debtors were appearing at ₹ 50,000 and Bad debts amounting to ₹ 5,000. In additional information it is written that 'Create a provision for doubtful debts @5% on debtors'. The amount to be debited in Profit and Loss Account of Sole Traders will be- 1

- (A) ₹ 7,500
- (B) ₹ 2,250
- (C) ₹ 2,750
- (D) ₹ 5,000

एक एकल-व्यापारी के तलपट में देनदार ₹ 50,000 और अप्राप्य ऋणों की राशि ₹ 5,000 से दर्शाई गई थी। अतिरिक्त सूचना में 'देनदारों पर 5% की दर से प्रावधान' बनाने के लिए कहा गया है। एकल व्यापारी के लाभ-हानि खाते के नाम पक्ष में लिखी जाने वाली राशि होगी:

- (A) ₹ 7,500
- (B) ₹ 2,250
- (C) ₹ 2,750
- (D) ₹ 5,000

6 After preparing Trial Balance the accountant finds that a sale of ₹ 390 to Ravi has been posted to the credit of his account as ₹ 290. To make the rectification which of the following is correct? 1

- (A) Debited to Suspense Account by ₹ 680.
- (B) Credited to Suspense Account by ₹ 680.
- (C) Debited to Ravi's Account by ₹ 680.
- (D) Credit to Ravi's Account by ₹ 680.

तलपट तैयार हो जाने के बाद लेखाकार को यह पता चला कि रवि को ₹ 390 के विक्रय की खतौनी उसके खाते के जमा पक्ष में ₹ 290 की राशि से हो गई है। इसका शोधन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है ?

- (A) उचंति खाते के नाम पक्ष में ₹ 680 से लेखा।
- (B) उचंति खाते के जमा पक्ष में ₹ 680 से लेखा।
- (C) रवि के खाते के नाम पक्ष में ₹ 680 से लेखा।
- (D) रवि के खाते के जमा पक्ष में ₹ 680 से लेखा।

- 7 As per 'Accounting Equation' which of the following amounts are correct? 1
- (A) Assets ₹ 7,85,000; Liabilities ₹ 1,25,000; Capital ₹ 6,60,000
 (B) Assets ₹ 8,20,000; Liabilities ₹ 2,80,000; Capital ₹ 11,00,000
 (C) Assets ₹ 9,55,000; Liabilities ₹ 1,15,000; Capital ₹ 8,20,000
 (D) Assets ₹ 5,42,000; Liabilities ₹ 6,54,000; Capital ₹ 1,12,000
- ‘लेखांकन समीकरण’ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राशियां सही हैं ?
- (A) ₹ 7,85,000 की परिसंपत्तियां; ₹ 1,25,000 की देयताएं; ₹ 6,60,000 की पूँजी
 (B) ₹ 8,20,000 की परिसंपत्तियां; ₹ 2,80,000 की देयताएं; ₹ 11,00,000 की पूँजी
 (C) ₹ 9,55,000 की परिसंपत्तियां; ₹ 1,15,000 की देयताएं; ₹ 8,20,000 की पूँजी
 (D) ₹ 5,42,000 की परिसंपत्तियां; ₹ 6,54,000 की देयताएं; ₹ 1,12,000 की पूँजी
- 8 'Journal' is known as: 1
- (A) Book of Primary Entry
 (B) Book of Secondary Entry
 (C) Book of Final Entry
 (D) Book of both Secondary and Final Entry
- ‘रोजनामचा’ को जाना जाता है:
- (A) प्राथमिक प्रविष्टि की पुस्तक
 (B) द्वितीयक प्रविष्टि की पुस्तक
 (C) अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक
 (D) द्वितीयक व अंतिम दोनों प्रविष्टियों की पुस्तक
- 9 Which of the following errors will affect the Trial Balance? 1
- (A) Omission to record a transaction in a journal.
 (B) Recording a wrong amount of an item in journal.
 (C) Mistake in totalling of sales book.
 (D) Posting the correct amount on correct side but in wrong account.
- निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित करेगी ?
- (A) किसी लेनदेन का लेखा रोजनामचे में होने से चूक।
 (B) रोजनामचे में किसी मद की राशि की गलत प्रविष्टि।
 (C) विक्रय बही के योग में त्रुटि।
 (D) सही पक्ष में सही राशि की खतौनी लेकिन गलत खाते में।

10 Which of the following is an item of 'Income' in a Not-For-Profit Organisation? 1

- (A) Legacy (B) Donations for Building Fund
(C) Life Membership Fees (D) Sales of Newspaper

निम्नलिखित में से कौन सी मद गैर-लाभकारी संस्था के लिए 'आय' की मद है ?

- (A) वसीयत (B) भवन कोष के लिए दान
(C) आजीवन सदस्यता शुल्क (D) समाचार-पत्र का विक्रय

11 'Trade Mark' is an example of which of the following assets? 1

- (A) Liquid Assets (B) Wasting Assets
(C) Intangible Assets (D) Fictitious Assets

'व्यापारिक चिह्न' (ट्रेडमार्क) निम्नलिखित में से किस प्रकार की संपत्तियों का उदाहरण है ?

- (A) तरल संपत्तियां (B) क्षयी संपत्तियां
(C) अमूर्त संपत्तियां (D) अवास्तविक संपत्तियां

12 Gaining Ratio is calculated as: 1

- (A) New Profit sharing ratio – Sacrificing ratio
(B) Sacrificing ratio – New Profit sharing ratio
(C) New Profit sharing ratio – Old Profit sharing ratio
(D) Old Profit sharing ratio – Sacrificing ratio

अधिलाभ अनुपात की गणना की जाती है:

- (A) नया लाभ विभाजन अनुपात – त्याग अनुपात
(B) त्याग अनुपात – नया लाभ विभाजन अनुपात
(C) नया लाभ विभाजन अनुपात – पुराना लाभ विभाजन अनुपात
(D) पुराना लाभ विभाजन अनुपात – त्याग अनुपात

13 When existing goodwill in the books is written off at the time of admission of a partner, it is transferred to old Partners' Capital Accounts in which ratio? 1

- (A) Gaining ratio (B) Old Profit sharing ratio
(C) New Profit sharing ratio (D) Sacrificing ratio

जब नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में विद्यमान ख्याति की राशि को अपलिखित करना हो, तो उसे पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है ?

- (A) अधिलाभ अनुपात (B) पुराने लाभ विभाजन अनुपात
(C) नए लाभ विभाजन अनुपात (D) त्याग अनुपात

14 When shares are issued for a price more than its face value, it is called: 1

- (A) Issue of shares at profit (B) Issue of shares at premium
(C) Issue of shares at discount (D) Issue of shares at loss

जब अंशों को उनके सम मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जाता है, तो यह कहलाता है:

- (A) अंशों का लाभ पर निर्गमन (B) अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन
(C) अंशों का बट्टे पर निर्गमन (D) अंशों का हानि पर निर्गमन

15 The mostly used input devices other than scanner are _____ and _____. 1×2

स्केनर के अतिरिक्त अधिकांशतः प्रयोग में लाये जाने वाले निवेश (इनपुट) उपकरण _____ और _____ हैं।

16 Give one word answer to the following: 1×2

(i) When the transaction has been recorded but an error is committed in the process of recording, this type of error is called -

(ii) The software that is designed and develop to meet user specific needs is -

निम्नलिखित के उत्तर एक शब्द में दीजिए:

(i) जब एक लेन-देन का लेखा हो जाता है परंतु लेखा करने की प्रक्रिया के दौरान त्रुटि हो जाए, तो इस प्रकार की अशुद्धि कहलाएगी -

(ii) ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन एवं विकसित किया जाए -

17 Give one word answer for the following: 1×2

- (i) The explanation of journal entry is known as:
- (ii) Which accounts always have a debit balance?

निम्नलिखित के लिए एक शब्द में उत्तर दें:

- (i) रोजनामचा प्रविष्टि की व्याख्या जानी जाती है:
- (ii) किन खातों के शेष सदैव नाम पक्ष में होते हैं ?

18 Give answer in one word: 1×2

- (i) In the absence of information at the time of retirement, the remaining partners take the retiring partner's share in which ratio?
- (ii) In case of retirement of a partner the goodwill is adjusted by debiting which account?

एक शब्द में उत्तर दीजिए:

- (i) सेवा निवृत्ति पर सूचना के अभाव में सेवानिवृत्त साझेदार के लाभ के भाग को शेष साझेदार किस अनुपात में लेते हैं ?
- (ii) एक साझेदार की सेवानिवृत्ति की स्थिति में ख्याति को समायोजित करने के लिए किस खाते के नाम पक्ष में लेखा किया जाता है ?

19 Fill in the blanks: 1×2

On cash basis of accounting revenue is recognised only on receipt of _____ and expenses are recorded as incurred when they are _____.

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:

रोकड़ आधारित लेखांकन में _____ की प्राप्ति ही आगम माना जाता है और व्ययों का खर्च के रूप में अभिलेखन उनके _____ पर किया जाता है।

20 Fill in the blanks:

1×2

- (i) Under weighted average method of valuation of goodwill weighted average profit is _____.
- (ii) When a partner transfer his/her interest in the firm to a third party it is called dissolution of a partnership firm by _____.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

- (i) ख्याति के मूल्यांकन की भारत औसत विधि के तहत भारत औसत लाभ _____ है।
- (ii) जब एक साझेदार फर्म में अपने हित को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दे, तो यह साझेदारी फर्म का _____ द्वारा समापन कहलाता है।

21 Give answer in one word for the following:

1×4

- (i) Forfeiture of shares results in the reduction of -
- (ii) At the time of disclosure of 'share capital' in company's Balance Sheet securities premium reserve is shown under -
- (iii) The call money demand by the company if not paid by a share holder will be debited to which account?
- (iv) A share of ₹ 100 on which ₹ 60 has been paid, is forfeited, can be re-issued at the minimum price of -

निम्नलिखित के लिए एक शब्द में उत्तर दीजिए:

- (i) अंशों की जब्ती का परिणाम किसमें कमी लाता है?
- (ii) कम्पनी के स्थिति विवरण में 'अंश पूँजी' के प्रकटीकरण के समय प्रतिभूति प्रीमियम संचय को किसके अन्तर्गत दर्शाया जाता है?
- (iii) यदि कम्पनी द्वारा याचित याचना राशि का भुगतान अंशधारी द्वारा नहीं किया जाता तो उसे किस खाते के नाम पक्ष में दर्शाया जाएगा?
- (iv) ₹ 100 का एक अंश जिस पर ₹ 60 का भुगतान हो चुका है, यदि जब्त किया गया, तो उसे कम से कम किस मूल्य पर पुनर्निर्गमित किया जा सकता है?

22 Give answer in one word to the following questions:

1×4

- (i) Net profit of a firm for the year ended 31/03/2024 was ₹ 21,000. The manager is allowed a commission of 5% on net profit after charging such commission. Calculate the manager's commission.
- (ii) While preparing financial statements of a trading concern provision for doubtful debts in excess of the required provision will be credited to which account?
- (iii) While preparing financial statements of a Not-For-Profit Organisation Life membership fee is considered which type of receipt?
- (iv) While preparing Receipts and Payments Account and Income and Expenditure Account of a Not-For-Profit-Organisation where 'Endowment fund' is shown?

निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए:

- (i) ता. 31/03/2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक फर्म का शुद्ध लाभ ₹ 21,000 था। शुद्ध लाभ पर कमीशन प्रभारित करने के बाद प्रबंधक को 5% कमीशन दिया जाना स्वीकृत हुआ है। प्रबंधक के कमीशन की गणना कीजिए।
- (ii) एक व्यापारिक उद्यम के वित्तीय विवरण तैयार करते समय संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान की राशि आवश्यक प्रावधान राशि से अधिक हो, तो उसे किस खाते के जमा पक्ष में दर्शाया जाएगा ?
- (iii) एक गैर-लाभकारी संगठन के वित्तीय विवरण तैयार करते समय 'आजीवन सदस्यता शुल्क' को किस प्रकार की प्राप्ति माना जाता है ?
- (iv) एक गैर-लाभकारी संगठन का 'प्राप्ति व भुगतान खाता' तथा 'आय व व्यय खाता' तैयार करते समय 'बंदोबस्त निधि' को कहाँ दिखाया जाता है ?

23 Give names of accounting errors in the following transactions: **1×4**

- (i) Sold of old furniture to Ram for ₹ 1,000 not recorded.
- (ii) Goods purchased from Amit for ₹ 520 recorded as ₹ 250 in the Purchases Book.
- (iii) Paid ₹ 12,000 for the installation of machinery debited to wages account.
- (iv) Repairs of ₹ 300 for building debited to building account.

निम्नलिखित लेनदेनों में लेखांकन अशुद्धियों के नाम बताइये:

- (i) राम को बेचे गए ₹ 1,000 के पुराने फर्नीचर का लेखा नहीं किया गया।
- (ii) अमित से ₹ 520 का क्रय किया माल का लेखा क्रय बही में ₹ 250 से किया गया।
- (iii) मशीनरी की स्थापना पर भुगतान किए गए ₹ 12,000 का लेखा मजदूरी खाते के नाम पक्ष में कर दिया गया।
- (iv) भवन की मरम्मत के ₹ 300 का लेखा भवन खाते के नाम पक्ष में किया गया।

24 Write the names of two affected accounts in the following transactions while preparing accounting equation: **1×4**

- (i) Goods purchased in cash for ₹ 60,000.
- (ii) Received commission of ₹ 4,000.
- (iii) Received a cheque from Amit.
- (iv) Goods sold for ₹ 10,000 in cash.

लेखांकन समीकरण तैयार करते समय निम्नलिखित लेन-देनों से प्रभावित होने वाले दो खातों के नाम लिखिए:

- (i) ₹ 60,000 का माल नकद क्रय किया।
- (ii) ₹ 4,000 का कमीशन प्राप्त किया।
- (iii) अमित से एक चैक प्राप्त किया।
- (iv) ₹ 10,000 का माल नकद विक्रय किया।

25 (i) What is meant by 'Under subscription' and 'Over subscription'? 2

‘अल्प अभिदान’ और ‘आधिक्य अभिदान’ का क्या अर्थ है ?

OR / अथवा

(ii) Give meaning of 'calls-in-advance'. Also state at what rate interest on calls-in-advance is paid.

‘पूर्व प्राप्त याचना’ का अर्थ दीजिए। साथ ही पूर्व प्राप्त याचना राशि पर दिए जाने वाले ब्याज दर का उल्लेख कीजिए।

26 (i) Explain with the help of an example how share of profit upto the date of death of a partner is calculated on 'Time Basis'. 2

एक उदाहरण की सहायता से समझाइये कि ‘समय आधार’ पर मृत साझेदार की मृत्यु की तिथि तक लाभ में उसके भाग की गणना कैसे की जाएगी।

OR / अथवा

(ii) State any two situations when a partnership firm can be compulsorily dissolved.

ऐसी किन्हीं दो स्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें साझेदारी फर्म का अनिवार्य रूप से समापन हो सकता है।

27 (i) Explain 'Average profit method' of valuation of goodwill. 2

ख्याति मूल्यांकन की ‘औसत लाभ विधि’ समझाइये।

OR / अथवा

(ii) Explain the following factors affecting goodwill:

(a) Quality

(b) Market situation

ख्याति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को समझाइये:

(a) गुणवत्ता

(b) बाज़ार की स्थिति

28 Explain the following terms:

2

- (a) Capital Receipts
- (b) Revenue Receipts

निम्नलिखित पदों को समझाइये:

- (a) पूँजीगत प्राप्तियां
- (b) आगम प्राप्तियां

29 (i) Explain the following limitations of Single Entry System :

3

- (a) Arithmetical accuracy cannot be proved
- (b) No control on assets
- (c) True profit cannot be known

एक अंकन प्रणाली की निम्नलिखित सीमाएं समझाइये :

- (a) अंकगणितीय शुद्धता सिद्ध नहीं की जा सकती
- (b) संपत्तियों पर नियंत्रण नहीं
- (c) सही लाभ का पता नहीं लगाया जा सकता

OR / अथवा

(ii) Explain the following objectives of preparing financial statements:

- (a) Ascertaining the results of business operations
- (b) Ascertaining the financial position
- (c) Helps in managerial decision making

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के निम्नलिखित उद्देश्यों को समझाइये:

- (a) व्यवसाय परिचालन के परिणाम का निर्धारण
- (b) वित्तीय स्थिति का निर्धारण
- (c) प्रबंधकीय निर्णय लेने में सहायक

- 30 (i) From the following information calculate cost of goods sold and gross profit for the year ended 31st March 2024 : 3

Total Purchases during the year	₹ 8,00,000
Opening stock	₹ 50,000
Return outwards	₹ 20,000
Direct Expenses	₹ 60,000
Sales	₹ 10,00,000
Closing stock	₹ 62,000

निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बेचे माल की लागत व सकल लाभ की गणना करें :

वर्ष के दौरान कुल क्रय	₹ 8,00,000
आरंभिक स्टॉक	₹ 50,000
बाह्य वापसी	₹ 20,000
प्रत्यक्ष व्यय	₹ 60,000
विक्रय	₹ 10,00,000
अंतिम स्टॉक	₹ 62,000

OR / अथवा

- (ii) Calculate the amount of 'Rent' to be shown in 'Income and Expenditure Account' of A.K. Hospitals for the year ending 31st March, 2025.

Amount (₹)

(i) Rent paid in the current year	12,000
(ii) Rent due but not paid in current year	1,600
(iii) Rent paid last year for this year	1,200
(iv) Rent due of last year paid in this year	4,000
(v) Advance rent paid for next year in this year	3,200

ए.के. हॉस्पिटल्स के 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के 'आय-व्यय खाते' में दर्शाने के लिए 'किराए' की राशि की गणना कीजिए।

राशि (₹)

(i) चालू वर्ष में भुगतान किया गया किराया	12,000
(ii) चालू वर्ष में अदत्त किराया जिसका भुगतान नहीं किया गया	1,600
(iii) पिछले वर्ष में इस वर्ष के लिए भुगतान किया गया किराया	1,200
(iv) पिछले वर्ष का अदत्त किराया जिसका भुगतान इस वर्ष में हुआ	4,000
(v) इस वर्ष में अगले वर्ष के लिए भुगतान किया गया अग्रिम किराया	3,200

- 31 (i) What is meant by 'Retirement of a partner'? State any four deductions to be made from the balance of capital account of a retiring partner while setting his/her claim. 3

‘साझेदार की सेवा निवृत्ति’ का क्या अर्थ है? निवृत्त साझेदार के पूँजी खाते के शेष से की जानेवाली किन्हीं चार कटौतियों का उल्लेख कीजिए जो सेवानिवृत्त साझेदार के दावे के निपटान के समय की जाती हैं।

OR / अथवा

- (ii) Pass necessary journal entries in the following cases for payment of realisation expenses:
- (a) When realisation expenses are paid by the firm.
 - (b) When realisation expenses are paid by the partner on behalf of the firm.
 - (c) Realisation expenses were agreed to be paid by the partner and were paid by the firm.

वसूली व्यय के भुगतान की निम्नलिखित स्थितियों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए:

- (a) जब वसूली व्यय का भुगतान फर्म द्वारा किया जाता है।
- (b) जब फर्म की ओर से वसूली व्यय का भुगतान साझेदार द्वारा किया जाता है।
- (c) जब वसूली व्यय के भुगतान की साझेदार द्वारा सहमति प्रदान की गई हो और फर्म द्वारा चुकाया हो।

- 32 Pass necessary journal entries on forfeiture of shares issued at premium in the following cases: 3

- (a) Premium money has been received prior to forfeiture.
- (b) Premium has not been received prior to forfeiture.

Also state by which amount the 'Share Capital Account' will be debited and 'Shares Forfeited Account' will be credited in both cases (a) and (b).

प्रीमियम पर निर्गमित अंशों की जब्ती के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए:

- (a) अंश जब्ती से पूर्व प्रीमियम की राशि का भुगतान प्राप्त हो गया है।
- (b) जब्ती से पूर्व प्रीमियम की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

साथ ही दोनों स्थितियों (a) व (b) में वह राशि भी बताइये जो ‘अंश पूँजी खाते’ के नाम पक्ष में लिखी जाएगी व ‘अंश जब्ती खाते’ के जमा पक्ष में लिखी जाएगी।

- 33 (i) What is meant by issue of shares for consideration other than cash? Pass necessary journal entries, if a machinery is purchased for ₹ 60,000 from K.K. Ltd. and payment is made by issuing shares of ₹ 10 each at par. 3

रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए अंशों के निर्गमन का अर्थ क्या है? आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि दीजिए, यदि एक मशीन के.के. लिमिटेड से ₹ 60,000 में क्रय की गई है और उसका भुगतान ₹ 10 प्रत्येक के अंशों को सम मूल्य पर निर्गमित करके किया गया है।

OR / अथवा

- (ii) What is meant by:
- Authorised share capital
 - Issued share capital
 - Subscribed share capital

इनका क्या अर्थ है ?

- अधिकृत अंश पूँजी
- निर्गमित अंश पूँजी
- अभिदत्त (प्रार्थित) अंश पूँजी

- 34 (i) From the following Trial Balance of Manish, prepare Trading Account, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2024 and a Balance Sheet as on that date: 5

Trial Balance of Manish as on 31st March, 2024

Particulars	Dr. Amount (₹)	Cr. Amount (₹)
Capital		50,000
Drawings	20,000	
Debtors and Creditors	24,000	16,000
Bank Loan (12% p.a.)	-	10,000
Interest on Loan	800	
Opening stock	26,700	
Furniture and Fixtures	33,900	
Carriage Inwards	11,000	
Salaries	22,000	
Purchases and Sales	50,000	1,31,000
Commission	-	9,000
Cash and Bank	27,600	
Total	2,16,000	2,16,000

Additional Informations:

- Closing stock on 31/03/2024 was ₹ 36,000.
- Interest of ₹ 400 on Bank Loan has due but not paid.
- A provision for doubtful debts is to maintained @ 5% on debtors.

मनीष के निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता, लाभ व हानि खाता और उसी तिथि को स्थिति विवरण तैयार कीजिए:

31 मार्च, 2024 को मनीष की तलपट

विवरण	नाम राशि (₹)	जमा राशि (₹)
पूँजी		50,000
आहरण	20,000	
देनदार और लेनदार	24,000	16,000
बैंक ऋण (12% प्रति वर्ष)	-	10,000
ऋण पर ब्याज	800	
आरंभिक स्टॉक	26,700	
फर्नीचर व फिक्सचर्स	33,900	
आवक माल गाड़ीभाड़ा	11,000	
वेतन	22,000	
क्रय एवं विक्रय	50,000	1,31,000
कमीशन	-	9,000
रोकड़ एवं बैंक	27,600	
कुल	2,16,000	2,16,000

अतिरिक्त सूचना:

- ता. 31/03/2024 को अंतिम स्टॉक ₹ 36,000 था।
- बैंक ऋण पर ₹ 400 का ब्याज देय हो चुका है लेकिन वह अभी दिया नहीं है।
- देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाया जाना है।

OR / अथवा

- (ii) From the following Receipts and Payments Account of R.K. Sports Club, prepare Income and Expenditure Account for the year ending 31st March, 2024.

**Receipts and Payments Account of R.K. Sports Club
for the year ending 31st March, 2024**

Receipts	Amount (₹)	Payments	Amount (₹)
Balance b/d	5,500	Salaries	7,000
Interest	600	Investments	8,000
Miscellaneous receipt	3,000	Stationery	5,200
Entrance fees	2,000	Furniture	10,000
Sale of old furniture (book value ₹ 2,000)	500	Balance c/d	6,400
Subscription	15,000		
Donation for building	10,000		
	36,600		36,600

Additional Information :

- (a) Subscription includes outstanding subscription of ₹ 2,500 for the year 2022-23 and ₹ 2,000 for the year 2024-25.
- (b) Salary outstanding is ₹ 1,200.
- (c) Interest accrued but not received is ₹ 200.
- (d) Provide depreciation on furniture @ 10%.

आर.के. स्पोर्ट्स क्लब के निम्नलिखित प्राप्ति एवं भुगतान खाते से 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता तैयार कीजिए:

आर. के. स्पोर्ट्स क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष का

प्राप्तियां	राशि (₹)	भुगतान	राशि (₹)
शेष आगे लाये	5,500	वेतन	7,000
ब्याज	600	निवेश	8,000
विविध प्राप्ति	3,000	स्टेशनरी	5,200
प्रवेश शुल्क	2,000	फर्नीचर	10,000
पुराने फर्नीचर का विक्रय (पुस्तक मूल्य ₹ 2,000)	500	शेष आगे ले गये	6,400
चंदा	15,000		
भवन के लिए दान	10,000		
	36,600		36,600

अतिरिक्त सूचना:

- चंदे में वर्ष 2022-23 का चंदा ₹ 2,500 और वर्ष 2024-25 का ₹ 2,000 का बकाया चंदा सम्मिलित है।
- अदत्त वेतन ₹ 1,200 है।
- उपार्जित परंतु प्राप्त नहीं ब्याज ₹ 200 है।
- फर्नीचर पर 10% की दर से ह्रास लगाया जाना है।

- 35 P, Q and R are partners and sharing profits and losses in the ratio of 3:3:2. 5
Their Balance Sheet as on 31st March, 2024 was as follows:

Balance Sheet of P, Q and R as on 31st March, 2024

Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)
Sundry Creditors	4,80,000	Cash at Bank	7,40,000
General Reserve	7,20,000	Sundry Debtors	8,80,000
Capital Accounts:		Stock	24,00,000
P 40,00,000		Machinery	31,80,000
Q 30,00,000		Building	40,00,000
R 30,00,000	1,00,00,000		
	1,12,00,000		1,12,00,000

Partners decided that with effect from 1st April 2024, they would share profits and losses in the ratio of 4:3:2. It was agreed that :

- Stock to be valued at ₹ 25,94,000.
- Machinery is to be depreciated by 10%.
- Building to be appreciated by 20%.

Partners agreed that the revised values are to be recorded in the books.

They do not however want to distribute the general reserve.

Prepare Revaluation Account and Capital Accounts of the partners.

Show your working notes clearly.

P, Q और R साझेदार हैं तथा 3:3:2 के अनुपात में अपने लाभों और हानियों का विभाजन करते हैं। 31 मार्च, 2024 को उनका स्थिति विवरण निम्नलिखित था:

P, Q और R का 31 मार्च, 2024 का स्थिति विवरण

देयताएँ	राशि (₹)	परिसंपत्तियाँ	राशि (₹)
विविध लेनदार	4,80,000	बैंक में रोकड़	7,40,000
सामान्य अनामत	7,20,000	विविध देनदार	8,80,000
पूँजी खाते:		स्टॉक	24,00,000
P 40,00,000		मशीनरी	31,80,000
Q 30,00,000		भवन	40,00,000
R 30,00,000	1,00,00,000		
	1,12,00,000		1,12,00,000

साझेदारों ने निर्णय लिया कि 1 अप्रैल, 2024 से वे अपने लाभों और हानियों को 4:3:2 के अनुपात में बांटेंगे। यह सहमति बनी कि:

- (a) स्टॉक का मूल्य ₹ 25,94,000 होगा।
- (b) मशीनरी पर 10% की दर से मूल्यहास लगाया जाएगा।
- (c) भवन के मूल्य में 20% की दर से वृद्धि होगी।

साझेदारों में सहमति हुई कि पुस्तकों में संशोधित मूल्यों पर लेखा किया जाएगा। हालांकि वे सामान्य अनामत का वितरण नहीं करना चाहते। पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कीजिए। अपनी कार्यात्मक टिप्पणियों को स्पष्टता से दिखाइये।

- 36 (i) Keshav Ltd. issued a prospectus for inviting applications from the public for 20,000 equity shares of ₹ 10 each. The amounts were payable as follows: 5

On Application	₹ 2 per share
On Allotment	₹ 3 per share
On first and final call	the balance

Applications were received for 24,000 equity shares and allotment was made as follows:

Full allotment on applications for 16,000 shares.

No applications for 6,000 shares - 4,000 shares were allotted.

No allotment was made on applications for 2,000 shares.

All money due was called and received except call money on 200 shares held by Hitesh. These shares were forfeited.

Pass necessary journal entries in the books of Keshav Ltd.

केशव लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 20,000 समता अंशों हेतु जनता से आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रविवरण जारी किया। राशियां निम्न प्रकार से देय थी:

आवेदन पर	₹ 2 प्रति अंश
आबंटन पर	₹ 3 प्रति अंश
प्रथम व अंतिम याचना पर	शेष

24,000 समता अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और आबंटन निम्न प्रकार हुआ:

16,000 अंश आवेदकों को पूर्ण आबंटन

6,000 अंश आवेदकों को 4,000 अंशों का आबंटन

2,000 अंशों के आवेदनों पर कोई आबंटन नहीं

सभी देय धनराशि मांग ली गई और प्राप्त हो गई, केवल हितेश द्वारा धारित 200 अंशों पर याचना राशि को छोड़कर। इन अंशों को जब्त कर लिया गया।

केशव लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए।

OR / अथवा

- (ii) M.K. Cars Ltd. issued 2,00,000 shares of ₹ 20 each at a premium of ₹ 5 per share. Payable as follows:

On application	₹ 8 (including ₹ 2 premium) per share
On allotment	₹ 16 (including ₹ 3 premium) per share
On first and final call	the balance

Applications were received for 2,00,000 shares and allotment was made to all applicants. All money due was called and received except first and final call money on 5,000 shares which were forfeited.

Pass necessary journal entries in the books of M.K. Cars Ltd.

एम.के. कार्स लिमिटेड ने ₹ 20 प्रत्येक के 2,00,000 अंशों को ₹ 5 प्रत्येक के प्रीमियम पर निर्गमित किया, जो निम्न प्रकार देय थी:

आवेदन पर	₹ 8 (₹ 2 प्रीमियम सम्मिलित) प्रति अंश
आबंटन पर	₹ 16 (₹ 3 प्रीमियम सम्मिलित) प्रति अंश
प्रथम व अंतिम याचना	शेष

2,00,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदकों को आबंटन कर दिया गया। सभी देय राशियां मंगवा ली गई व प्राप्त हुई। केवल 5,000 अंशों को छोड़कर जिन पर प्रथम व अंतिम याचना राशि प्राप्त नहीं हुई, उन्हें जब्त कर लिया गया।

एम.के. कार्स लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए।

SECTION – B

खण्ड – B

(Attempt any one of the Optional Modules)

(वैकल्पिक मॉड्यूलों में कोई एक का उत्तर दीजिए)

OPTIONAL MODULE – I

वैकल्पिक मॉड्यूल – I

(Analysis of Financial Statements)

(वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

37 If Equity share capital is ₹ 2,00,000; General Reserve is ₹ 50,000; Debentures are ₹ 5,00,000 and Trade creditors are ₹ 50,000, then the debt-equity ratio will be:

(A) 2.2:1

(B) 2:1

(C) 2.5:1

(D) 5:1

यदि समता अंश पूँजी ₹ 2,00,000 है; सामान्य अनामत ₹ 50,000 है; ऋणपत्र ₹ 5,00,000 हैं और व्यापारिक लेनदार ₹ 50,000 हैं, तो ऋण-समता अनुपात होगा:

(A) 2.2:1

(B) 2:1

(C) 2.5:1

(D) 5:1

38 Which of the following is not an item of cash flows from operating activities? 1

- (A) Cash payment to employees
- (B) Cash payment to acquire shares
- (C) Refund of income tax
- (D) Cash payment to suppliers for goods

निम्नलिखित में से कौन सी मद परिचालन क्रियाओं में रोकड़ का प्रवाह नहीं है ?

- (A) कर्मचारियों को नकद भुगतान
- (B) अंशों के अधिग्रहण के लिए नकद भुगतान
- (C) आयकर की वापसी (रिफंड)
- (D) माल पूर्तिकर्ताओं को नकद भुगतान

39 If cost of Revenue from operations is ₹ 1,80,000; Gross Profit is ₹ 50,000; Opening inventory is ₹ 29,000 and Closing inventory is ₹ 31,000. 1

The Inventory Turnover ratio will be:

- (A) 6 times
- (B) 3 times
- (C) 2.16 times
- (D) 4.3 times

यदि प्रचालन से आगम की लागत ₹ 1,80,000 है; सकल लाभ ₹ 50,000 है; आरंभिक स्कंध ₹ 29,000 है और अंतिम स्कंध ₹ 31,000 है, तो स्कंध (स्टॉक) आवर्त अनुपात होगा:

- (A) 6 बार/गुणा
- (B) 3 बार/गुणा
- (C) 2.16 बार/गुणा
- (D) 4.3 बार/गुणा

40 If current-ratio is 2:1, which of the following transactions will improve the current ratio? 1

- (A) Payment of ₹ 10,000 to creditors.
- (B) Received ₹ 5,000 from debtors.
- (C) Purchased goods for ₹ 8,000.
- (D) Purchase of fixed assets by taking long term loan.

यदि चालू अनुपात 2:1 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लेनदेन चालू अनुपात में वृद्धि करेगा ?

- (A) लेनदारों को ₹ 10,000 का भुगतान।
- (B) देनदारों से ₹ 5,000 की प्राप्ति।
- (C) ₹ 8,000 के माल का क्रय।
- (D) दीर्घावधि ऋण से स्थायी संपत्तियों का क्रय।

41 While preparing cash flow statement 'Dividend paid on shares' is categorised under which of the following activities? **1**

- (A) Operating activities
- (B) Investing activities
- (C) Financing activities
- (D) Both operating and financing activities

रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय 'अंशों पर लाभांश का भुगतान' को निम्नलिखित क्रियाओं में से किस श्रेणी में रखा जाता है ?

- (A) परिचालन क्रियाएं
- (B) निवेश क्रियाएं/विनियोजन क्रियाएं
- (C) वित्तीयन क्रियाएं
- (D) प्रचालन व वित्तीयन क्रियाएं दोनों

42 Which of the following is considered as 'Cash Equivalents' while preparing cash flow statement? **1**

- (A) Depreciation
- (B) Dividend received
- (C) Gain on sale of land
- (D) Marketable securities

रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय निम्नलिखित में से किसे 'रोकड़ तुल्य' माना जाता है ?

- (A) मूल्यहास
- (B) प्राप्त लाभांश
- (C) भूमि के विक्रय पर अधिलाभ
- (D) विपणनीय प्रतिभूतियां

43 Complete the following sentences : **1×2**

- (i) The term liquidity refers the ability of the company to meet its -
- (ii) A high 'Trade Payable Turnover Ratio' indicates -

निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए:

- (i) तरलता शब्द का तात्पर्य है कम्पनी की वह क्षमता जिससे वह पूरा कर सके अपने -
- (ii) उच्च 'देय व्यापार आवर्त अनुपात' संकेत करता है -

44 Calculate Net Profit Ratio from the following:

2

Amount (₹)

Net Profit 65,000

Sales 8,40,000

Sales Returns 40,000

निम्नलिखित से शुद्ध लाभ अनुपात की गणना कीजिए:

राशि (₹)

शुद्ध लाभ 65,000

विक्रय 8,40,000

विक्रय वापसी 40,000

45 Explain the treatment of proposed dividend in cash flow statement.

2

रोकड़ प्रवाह विवरण में प्रस्तावित लाभांश के व्यवहार को समझाइये।

46 Explain following advantages of 'Ratio Analysis':

3

(a) Useful in analysis of financial statements

(b) Useful in simplifying accounting figures

(c) Useful for forecasting

‘अनुपात विश्लेषण’ के निम्नलिखित लाभों को समझाइये:

(a) वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में उपयोगी

(b) लेखांकन मदों (फिगर्स) के सरलीकरण में उपयोगी

(c) भविष्यवाणी के लिए उपयोगी

- 47 Calculate Cash flow from operating activities, investing activities and financing activities from the following information given in the Balance Sheets of Venugopalan Limited as on 31st March, 2024 and 31st March 2023: 5

Particulars	Note No.	31 st March 2024 (₹)	31 st March 2023 (₹)
I Equity and liabilities			
1 Shareholders' funds :			
(a) Share Capital		1,35,000	1,12,500
(b) Reserves and Surplus	1	35,000	25,000
2 Non-current liabilities :			
Long-term borrowings :			
12% Debentures		40,000	50,000
3 Current liabilities :			
Trade payables		80,000	30,000
Total		2,90,000	2,17,500
II Assets			
1 Non-current assets :			
Fixed assets:			
(i) Tangible assets : Land & Building		2,01,000	1,50,000
(ii) Intangible assets : Patents		5,000	5,000
2 Current assets :			
(a) Inventories : Stock		47,500	36,500
(b) Trade receivables		30,000	20,000
(c) Cash and cash equivalents		6,500	6,000
Total		2,90,000	2,17,500

Notes to Accounts

Particulars	31 st March 2024 (₹)	31 st March 2023 (₹)
1 Reserve and Surplus		
Surplus : i.e. Balance in statement of profit and loss	35,000	25,000

निम्नलिखित सूचनाओं से वेणुगोपाल लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 के स्थिति विवरणों से प्रचालन क्रियाओं, निवेश क्रियाओं तथा वित्तीयन क्रियाओं द्वारा रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए:

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2024 (₹)	31 मार्च 2023 (₹)
I समता एवं देयताएँ			
1 अंशधारियों के कोष :			
(a) अंश पूँजी		1,35,000	1,12,500
(b) अनामत एवं आधिक्य	1	35,000	25,000
2 गैर-चालू देयताएं :			
दीर्घावधि उधारियां : 12% ऋणपत्र		40,000	50,000
3 चालू देयताएं :			
व्यापारिक देय		80,000	30,000
कुल		2,90,000	2,17,500
II संपत्तियां			
1 गैर-चालू संपत्तियां :			
स्थायी संपत्तियां :			
(i) मूर्त संपत्तियां : भवन व भूमि		2,01,000	1,50,000
(ii) अमूर्त संपत्तियां : पेटेन्ट		5,000	5,000
2 चालू संपत्तियां :			
(a) इन्वेन्ट्रीज : स्टॉक		47,500	36,500
(b) व्यापारिक प्राप्य		30,000	20,000
(c) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य		6,500	6,000
कुल		2,90,000	2,17,500

खातों पर टिप्पणियां

विवरण	31 मार्च 2024 (₹)	31 मार्च 2023 (₹)
1 अनामत एवं आधिक्य		
आधिक्य : अर्थात् लाभ हानि विवरण का शेष	35,000	25,000

OPTIONAL MODULE – II

वैकल्पिक मॉड्यूल – II

(Application of Computers in Financial Accounting)

(कम्प्यूटर का वित्तीय लेखांकन में उपयोग)

37 Excel worksheet supports the functions of calculating depreciation on assets by : 1

- (A) Straight line method of depreciation
- (B) Diminishing balance method of depreciation
- (C) Sum of years digit method of depreciation
- (D) All of the above

एक्सल वर्कशीट संपत्तियों पर ह्रास की गणना के प्रकार्यों का समर्थन करती है:

- (A) ह्रास की सरल रेखा विधि द्वारा
- (B) ह्रास की ह्रासित (घटते) शेष विधि द्वारा
- (C) ह्रास की द्विह्रासित शेष विधि द्वारा
- (D) उपरोक्त सभी के द्वारा

38 Which of the following is not an element in the process of structuring a data base? 1

- (A) Requirement analysis
- (B) Object linking and embedding
- (C) Conceptual design
- (D) Logical design

निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस की संरचना प्रक्रिया का चरण नहीं है ?

- (A) आवश्यकता विश्लेषण
- (B) ओब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग
- (C) संकल्पित रूपरेखा
- (D) तार्किक रूपरेखा

- 39** In Excel software Pie chart can not plot more than: **1**
- (A) 7 categories (B) 10 categories
(C) 8 categories (D) 12 categories
- एक्सल साफ्टवेयर में पाई चार्ट किससे अधिक अंकित (plot) नहीं कर सकता ?
- (A) 7 श्रेणियां (B) 10 श्रेणियां
(C) 8 श्रेणियां (D) 12 श्रेणियां
- 40** Basic pay earned by an employee is calculated on the basis of: **1**
- (A) Total number of days in a month
(B) Dearness allowance $\times$ Total no. of days in a month
(C) Number of effective days present
(D) House rent allowance $\times$ Number of effective days in a month
- एक कर्मचारी द्वारा अर्जित मूल वेतन की गणना का आधार है:
- (A) एक माह में कुल दिनों की संख्या
(B) मंहगाई भत्ता $\times$ एक माह में कुल दिनों की संख्या
(C) उपस्थित प्रभावी दिनों की संख्या
(D) आवास भाड़ा भत्ता $\times$ एक माह में प्रभावी दिनों की संख्या
- 41** While modifying a chart which of the following is not a step of modify the 'labels and titles'? **1**
- (A) Click the 'Chart'.
(B) On the 'Layout' tab, click the 'Chart Title' or the 'Data Labels' button.
(C) Change the 'Title' and click 'Enter'.
(D) Click the switch Row/Column button on the 'Design' tab.
- एक चार्ट में संशोधन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा चरण 'लेबल्स एवं टाइटल्स' के संशोधन का नहीं है ?
- (A) 'चार्ट' पर क्लिक कीजिए।
(B) 'ले-आउट' (Layout) टेब पर 'चार्ट टाइटल' अथवा 'डेटा लेबल्स' बटन क्लिक करें।
(C) 'टाइटल' को बदले व 'एन्टर' को क्लिक करें।
(D) 'डिजाइन' टेब पर स्विच रॉ/कॉलम बटन पर क्लिक करें।

42 While defining the structure of the 'table' in Access 'Hyperlink' is used for: **1**

- (A) Storing comments.
- (B) Storing numbers and are subjected to arithmetical calculations.
- (C) Storing universal resource locators and email addresses.
- (D) Entering numeric data automatically.

एक्सेस में एक 'सारणी' की संरचना को परिभाषित करते समय 'हाइपरलिंक' का प्रयोग होता है:

- (A) सम्मति (कमेंट्स) में भंडारण के लिए।
- (B) अंकगणितीय गणनाओं पर निर्भर होनेवाली संख्याओं के भंडारण के लिए।
- (C) यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर व ईमेल एड्रेस के भंडारण के लिए।
- (D) संख्यात्मक डाटा को स्वतः प्रविष्ट करने के लिए।

43 The net amount of salary is the difference between _____ and _____. **1×2**

शुद्ध वेतन की राशि _____ व _____ के बीच का अंतर है।

44 Explain the following components of deductions in payroll accounting: **2**

- (a) Provident fund
- (b) Tax Deduction at Source

पेरोल लेखांकन में कटौती के निम्नलिखित घटकों को समझाइये:

- (a) भविष्य निधि
- (b) उद्गम स्थान पर कर कटौती

45 Explain any two advantages of using graphs. **2**

ग्राफ के प्रयोग के कोई दो लाभों को समझाइये।

46 State the steps for creating a chart using Charts/Graphs tools in Excel. **3**

एक्सल में चार्ट टूल्स के प्रयोग द्वारा चार्ट/ग्राफ बनाने के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए।

47 Explain any five components of earnings included in payroll accounting. **5**

पेरोल लेखांकन में सम्मिलित 'अर्जनों (कमाइ)' के किन्हीं पाँच घटकों को समझाइये।

This Question Paper consists of 47 questions and 32 printed pages.
इस प्रश्न-पत्र में 47 प्रश्न तथा 32 मुद्रित पृष्ठ हैं।

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

अनुक्रमांक

Code No. 70/OSS/2
कोड नं.

SET/सेट -

C

ACCOUNTANCY
लेखांकन
(Principles and Practice of Financial Accounting)
(वित्तीय लेखांकन के सिद्धान्त एवं व्यवहार)
(320)

Day and Date of Examination
(परीक्षा का दिन व दिनांक)

Signature of Invigilators
(निरीक्षकों के हस्ताक्षर)

1. _____
2. _____

General Instructions :

1. Candidate must write his/her Roll Number on the first page of the Question Paper.
2. Please check the Question Paper to verify that the total pages and total number of questions contained in the Question Paper are the same as those printed on the top of the first page. Also check to see that the questions are in sequential order.
3. Making any identification mark in the Answer-Book or writing Roll Number anywhere other than the specified places will lead to disqualification of the candidate.
4. Write your Question Paper Code No. 70/OSS/2, Set-

C

 on the Answer-Book.
5. (a) The Question Paper is in English/Hindi medium only. However, if you wish, you can answer in any one of the languages listed below :
English, Hindi, Urdu, Punjabi, Bengali, Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Marathi, Oriya, Gujarati, Konkani, Manipuri, Assamese, Nepali, Kashmiri, Sanskrit and Sindhi.
You are required to indicate the language you have chosen to answer in the box provided in the Answer-Book.
(b) If you choose to write the answer in the language other than Hindi and English, the responsibility for any errors/mistakes in understanding the questions will be yours only.
6. In case of any doubt or confusion in the question paper, the **English** Version will prevail.

सामान्य अनुदेश :

1. परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें।
2. कृपया प्रश्न-पत्र को जाँच लें कि प्रश्न-पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जाँच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में हैं।
3. उत्तर-पुस्तिका में पहचान-चिह्न बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जायेगा।
4. अपनी उत्तर-पुस्तिका पर प्रश्न-पत्र का कोड नं. 70/OSS/2, सेट-

C

 लिखें।
5. (क) प्रश्न-पत्र केवल हिंदी/अंग्रेजी माध्यम में है। फिर भी, यदि आप चाहें तो नीचे दी गई किसी एक भाषा में उत्तर दे सकते हैं :
अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगला, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उड़िया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, असमिया, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत और सिंधी।
कृपया उत्तर-पुस्तिका में दिए गए बॉक्स में लिखें कि आप किस भाषा में उत्तर लिख रहे हैं।
(ख) यदि आप हिंदी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उत्तर लिखते हैं तो प्रश्न को समझने में होने वाली त्रुटियों / गलतियों की जिम्मेदारी केवल आपकी होगी।
6. प्रश्न-पत्र में किसी भी प्रकार के संदेह अथवा दुविधा की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा।

ACCOUNTANCY

लेखांकन

(Principles and Practice of Financial Accounting)

(वित्तीय लेखांकन के सिद्धान्त एवं व्यवहार)

(320)

Time : 3 Hours]

समय : 3 घण्टे]

[Maximum Marks : 100

[पूर्णांक : 100

- Note :**
- (i) This question paper consists of **47** questions in all.
 - (ii) **All** questions are compulsory. Internal choices are given wherever required.
 - (iii) Marks are given against each question.
 - (iv) Attempt these questions as per the instructions given for each of the questions.
 - (v) This question paper has **two** section - **Section 'A'** and **Section 'B'**.
 - (vi) **Section 'A'** has **36** questions from Question No. **1 to 36**.
 - (vii) **Section 'B'** has **11** questions from Question No. **37 to 47**.
 - (viii) **Section 'B'** has **two** options. **Optional Module - I** : Analysis of Financial Statements. **Optional Module - II** : Application of Computers in Financial Accounting. Candidates are required to attempt questions from one option only. All questions of an option are compulsory.

- निर्देश :**
- (i) इस प्रश्न-पत्र में कुल **47** प्रश्न हैं।
 - (ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जहाँ आवश्यक है, वहाँ आंतरिक विकल्प दिए गए हैं।
 - (iii) प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दिए गए हैं।
 - (iv) इन प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक प्रश्न में दिए गए निर्देशानुसार दीजिए।
 - (v) इस प्रश्न-पत्र में दो खण्ड हैं - खण्ड '**A**' एवं खण्ड '**B**'।
 - (vi) खण्ड '**A**' में **36** प्रश्न हैं, प्रश्न-संख्या **1** से **36** तक।
 - (vii) खण्ड '**B**' में **11** प्रश्न हैं, प्रश्न-संख्या **37** से **47** तक।
 - (viii) खण्ड '**B**' में दो विकल्प हैं। वैकल्पिक मॉड्यूल - **I** : वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। वैकल्पिक मॉड्यूल - **II** : वित्तीय लेखांकन में कम्प्यूटर का प्रयोग। परीक्षार्थियों को केवल एक विकल्प के ही उत्तर देने हैं। एक विकल्प के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

NOTE / निर्देश :

- (1) Answers of all questions are to be given in the Answer-Book given to you. सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दी गयी उत्तर पुस्तिका में ही लिखें।
- (2) 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 02.15 p.m. From 02.15 p.m. to 02.30 p.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.
इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण दोपहर में 02.15 बजे किया जाएगा। 02.15 बजे से 02.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

SECTION – A

खण्ड – A

- 1 When Actual profit of a firm is ₹ 75,000; Normal profit is ₹ 50,000 and Goodwill is calculated by 3 years purchase of super profit, then Goodwill will be: 1
- (A) ₹ 1,50,000 (B) ₹ 2,25,000
(C) ₹ 50,000 (D) ₹ 75,000
- जब फर्म का वास्तविक लाभ ₹ 75,000 है; साधारण लाभ ₹ 50,000 है तथा ख्याति की गणना अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के द्वारा की जानी है, तो ख्याति होगी:
- (A) ₹ 1,50,000 (B) ₹ 2,25,000
(C) ₹ 50,000 (D) ₹ 75,000
- 2 Gaining Ratio is calculated as: 1
- (A) New Profit sharing ratio – Sacrificing ratio
(B) Sacrificing ratio – New Profit sharing ratio
(C) New Profit sharing ratio – Old Profit sharing ratio
(D) Old Profit sharing ratio – Sacrificing ratio
- अधिलाभ अनुपात की गणना की जाती है:
- (A) नया लाभ विभाजन अनुपात – त्याग अनुपात
(B) त्याग अनुपात – नया लाभ विभाजन अनुपात
(C) नया लाभ विभाजन अनुपात – पुराना लाभ विभाजन अनुपात
(D) पुराना लाभ विभाजन अनुपात – त्याग अनुपात
- 3 At the time of admission of a new partner which of the following items is shown on the debit side of 'Revaluation Account'? 1
- (A) Decrease in the value of liabilities
(B) Loss on revaluation
(C) Unrecorded liabilities
(D) Unrecorded assets
- नए साझादेर के प्रवेश के समय निम्न में से कौन सी मद 'पुनर्मूल्यांकन खाते' के नाम पक्ष में दर्शायी जाती है ?
- (A) देयताओं के मूल्य में कमी
(B) पुनर्मूल्यांकन में हानि
(C) गैर-लेखांकित देयताएं
(D) गैर-लेखांकित संपत्तियां

- 4 'Trade Mark' is an example of which of the following assets? 1
- (A) Liquid Assets (B) Wasting Assets
(C) Intangible Assets (D) Fictitious Assets
- ‘व्यापारिक चिह्न’ (ट्रेडमार्क) निम्नलिखित में से किस प्रकार की संपत्तियों का उदाहरण है ?
- (A) तरल संपत्तियां (B) क्षयी संपत्तियां
(C) अमूर्त संपत्तियां (D) अवास्तविक संपत्तियां
- 5 After preparing Trial Balance the accountant finds that a sale of ₹ 390 to Ravi has been posted to the credit of his account as ₹ 290. To make the rectification which of the following is correct? 1
- (A) Debited to Suspense Account by ₹ 680.
(B) Credited to Suspense Account by ₹ 680.
(C) Debited to Ravi's Account by ₹ 680.
(D) Credit to Ravi's Account by ₹ 680.
- तलपट तैयार हो जाने के बाद लेखाकार को यह पता चला कि रवि को ₹ 390 के विक्रय की खतौनी उसके खाते के जमा पक्ष में ₹ 290 की राशि से हो गई है। इसका शोधन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है ?
- (A) उचंति खाते के नाम पक्ष में ₹ 680 से लेखा।
(B) उचंति खाते के जमा पक्ष में ₹ 680 से लेखा।
(C) रवि के खाते के नाम पक्ष में ₹ 680 से लेखा।
(D) रवि के खाते के जमा पक्ष में ₹ 680 से लेखा।
- 6 An equity share of ₹ 10 which is issued at par and on which the company has called up ₹ 8 but received ₹ 6, has been forfeited by the company. The share forfeited account will be credited by : 1
- (A) ₹ 8 (B) ₹ 10
(C) ₹ 6 (D) ₹ 2
- ₹ 10 के एक समता अंश को जिसे सम मूल्य पर निर्गमित किया गया है, जिस पर ₹ 8 कम्पनी द्वारा याचित किए गए परंतु ₹ 6 का ही भुगतान प्राप्त हुआ, कम्पनी द्वारा जब्त कर लिया गया। अंश जब्ती खाते के जमा पक्ष में लिखी जाने वाली राशि होगी:
- (A) ₹ 8 (B) ₹ 10
(C) ₹ 6 (D) ₹ 2

7 When shares are issued for a price more than its face value, it is called: 1

- (A) Issue of shares at profit (B) Issue of shares at premium
(C) Issue of shares at discount (D) Issue of shares at loss

जब अंशों को उनके सम मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जाता है, तो यह कहलाता है:

- (A) अंशों का लाभ पर निर्गमन (B) अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन
(C) अंशों का बट्टे पर निर्गमन (D) अंशों का हानि पर निर्गमन

8 At the time of forfeiture of shares: 1

- (A) Share capital account is credited with the called up value of shares forfeited.
(B) Share capital account is debited with the nominal (face) value of shares forfeited.
(C) Share capital account is neither debited nor credited.
(D) Share capital account is debited with the called-up value of share forfeited.

अंशों की जब्ती के समय:

- (A) अंश पूँजी खाते को जब्त अंशों पर याचित राशि से जमा पक्ष में लेखा किया जाता है।
(B) अंश पूँजी खाते को जब्त अंशों की सम (नाममात्र) मूल्य की राशि से नाम पक्ष में लेखा किया जाता है।
(C) अंश पूँजी खाते के न तो नाम पक्ष में और न ही जमा पक्ष में कोई लेखा किया जाता है।
(D) अंश पूँजी खाते को जब्त अंशों के याचित मूल्य से नाम पक्ष में लेखा किया जाता है।

9 When existing goodwill in the books is written off at the time of admission of a partner, it is transferred to old Partners' Capital Accounts in which ratio? 1

- (A) Gaining ratio (B) Old Profit sharing ratio
(C) New Profit sharing ratio (D) Sacrificing ratio

जब नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में विद्यमान ख्याति की राशि को अपलिखित करना हो, तो उसे पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है?

- (A) अधिलाभ अनुपात (B) पुराने लाभ विभाजन अनुपात
(C) नए लाभ विभाजन अनुपात (D) त्याग अनुपात

- 10 In a Trial Balance of a Sole Traders Debtors were appearing at ₹ 50,000 and 1
Bad debts amounting to ₹ 5,000. In additional information it is written that
'Create a provision for doubtful debts @5% on debtors'. The amount to be
debited in Profit and Loss Account of Sole Traders will be-

(A) ₹ 7,500 (B) ₹ 2,250
(C) ₹ 2,750 (D) ₹ 5,000

एक एकल-व्यापारी के तलपट में देनदार ₹ 50,000 और अप्राप्य ऋणों की राशि ₹ 5,000 से दर्शाई गई थी। अतिरिक्त सूचना में 'देनदारों पर 5% की दर से प्रावधान' बनाने के लिए कहा गया है। एकल व्यापारी के लाभ-हानि खाते के नाम पक्ष में लिखी जाने वाली राशि होगी:

(A) ₹ 7,500 (B) ₹ 2,250
(C) ₹ 2,750 (D) ₹ 5,000

- 11 Which of the following is an item of 'Income' in a Not-For-Profit 1
Organisation?

(A) Legacy (B) Donations for Building Fund
(C) Life Membership Fees (D) Sales of Newspaper

निम्नलिखित में से कौन सी मद गैर-लाभकारी संस्था के लिए 'आय' की मद है?

(A) वसीयत (B) भवन कोष के लिए दान
(C) आजीवन सदस्यता शुल्क (D) समाचार-पत्र का विक्रय

- 12 Which of the following errors will affect the Trial Balance? 1

(A) Omission to record a transaction in a journal.
(B) Recording a wrong amount of an item in journal.
(C) Mistake in totalling of sales book.
(D) Posting the correct amount on correct side but in wrong account.

निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित करेगी?

(A) किसी लेनदेन का लेखा रोजनामचे में होने से चूक।
(B) रोजनामचे में किसी मद की राशि की गलत प्रविष्टि।
(C) विक्रय बही के योग में त्रुटि।
(D) सही पक्ष में सही राशि की खतौनी लेकिन गलत खाते में।

- 13 As per 'Accounting Equation' which of the following amounts are correct? 1
- (A) Assets ₹ 7,85,000; Liabilities ₹ 1,25,000; Capital ₹ 6,60,000
 (B) Assets ₹ 8,20,000; Liabilities ₹ 2,80,000; Capital ₹ 11,00,000
 (C) Assets ₹ 9,55,000; Liabilities ₹ 1,15,000; Capital ₹ 8,20,000
 (D) Assets ₹ 5,42,000; Liabilities ₹ 6,54,000; Capital ₹ 1,12,000
- ‘लेखांकन समीकरण’ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राशियां सही हैं ?
- (A) ₹ 7,85,000 की परिसंपत्तियां; ₹ 1,25,000 की देयताएं; ₹ 6,60,000 की पूँजी
 (B) ₹ 8,20,000 की परिसंपत्तियां; ₹ 2,80,000 की देयताएं; ₹ 11,00,000 की पूँजी
 (C) ₹ 9,55,000 की परिसंपत्तियां; ₹ 1,15,000 की देयताएं; ₹ 8,20,000 की पूँजी
 (D) ₹ 5,42,000 की परिसंपत्तियां; ₹ 6,54,000 की देयताएं; ₹ 1,12,000 की पूँजी
- 14 'Journal' is known as: 1
- (A) Book of Primary Entry
 (B) Book of Secondary Entry
 (C) Book of Final Entry
 (D) Book of both Secondary and Final Entry
- ‘रोजनामचा’ को जाना जाता है:
- (A) प्राथमिक प्रविष्टि की पुस्तक
 (B) द्वितीयक प्रविष्टि की पुस्तक
 (C) अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक
 (D) द्वितीयक व अंतिम दोनों प्रविष्टियों की पुस्तक
- 15 The mostly used input devices other than scanner are _____ and _____. 1×2
- स्केनर के अतिरिक्त अधिकांशतः प्रयोग में लाये जाने वाले निवेश (इनपुट) उपकरण _____ और _____ हैं।
- 16 Give answer in one word: 1×2
- (i) In the absence of information at the time of retirement, the remaining partners take the retiring partner's share in which ratio?
 (ii) In case of retirement of a partner the goodwill is adjusted by debiting which account?
- एक शब्द में उत्तर दीजिए:
- (i) सेवा निवृत्ति पर सूचना के अभाव में सेवानिवृत्त साझेदार के लाभ के भाग को शेष साझेदार किस अनुपात में लेते हैं ?
 (ii) एक साझेदार की सेवानिवृत्ति की स्थिति में ख्याति को समायोजित करने के लिए किस खाते के नाम पक्ष में लेखा किया जाता है ?

17 Fill in the blanks: **1×2**

On cash basis of accounting revenue is recognised only on receipt of _____ and expenses are recorded as incurred when they are _____.

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:

रोकड़ आधारित लेखांकन में _____ की प्राप्ति ही आगम माना जाता है और व्ययों का खर्च के रूप में अभिलेखन उनके _____ पर किया जाता है।

18 Fill in the blanks: **1×2**

(i) Under weighted average method of valuation of goodwill weighted average profit is _____.

(ii) When a partner transfer his/her interest in the firm to a third party it is called dissolution of a partnership firm by _____.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

(i) ख्याति के मूल्यांकन की भारत औसत विधि के तहत भारत औसत लाभ _____ है।

(ii) जब एक साझेदार फर्म में अपने हित को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दे, तो यह साझेदारी फर्म का _____ द्वारा समापन कहलाता है।

19 Give one word answer for the following: **1×2**

(i) The explanation of journal entry is known as:

(ii) Which accounts always have a debit balance?

निम्नलिखित के लिए एक शब्द में उत्तर दें:

(i) रोजनामचा प्रविष्टि की व्याख्या जानी जाती है:

(ii) किन खातों के शेष सदैव नाम पक्ष में होते हैं ?

20 Give one word answer to the following: **1×2**

(i) When the transaction has been recorded but an error is committed in the process of recording, this type of error is called -

(ii) The software that is designed and develop to meet user specific needs is -

निम्नलिखित के उत्तर एक शब्द में दीजिए:

(i) जब एक लेन-देन का लेखा हो जाता है परंतु लेखा करने की प्रक्रिया के दौरान त्रुटि हो जाए, तो इस प्रकार की अशुद्धि कहलाएगी -

(ii) ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन एवं विकसित किया जाए -

21 Give answer in one word to the following questions:

1×4

- (i) Net profit of a firm for the year ended 31/03/2024 was ₹ 21,000. The manager is allowed a commission of 5% on net profit after charging such commission. Calculate the manager's commission.
- (ii) While preparing financial statements of a trading concern provision for doubtful debts in excess of the required provision will be credited to which account?
- (iii) While preparing financial statements of a Not-For-Profit Organisation Life membership fee is considered which type of receipt?
- (iv) While preparing Receipts and Payments Account and Income and Expenditure Account of a Not-For-Profit-Organisation where 'Endowment fund' is shown?

निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए:

- (i) ता. 31/03/2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक फर्म का शुद्ध लाभ ₹ 21,000 था। शुद्ध लाभ पर कमीशन प्रभारित करने के बाद प्रबंधक को 5% कमीशन दिया जाना स्वीकृत हुआ है। प्रबंधक के कमीशन की गणना कीजिए।
- (ii) एक व्यापारिक उद्यम के वित्तीय विवरण तैयार करते समय संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान की राशि आवश्यक प्रावधान राशि से अधिक हो, तो उसे किस खाते के जमा पक्ष में दर्शाया जाएगा ?
- (iii) एक गैर-लाभकारी संगठन के वित्तीय विवरण तैयार करते समय 'आजीवन सदस्यता शुल्क' को किस प्रकार की प्राप्ति माना जाता है ?
- (iv) एक गैर-लाभकारी संगठन का 'प्राप्ति व भुगतान खाता' तथा 'आय व व्यय खाता' तैयार करते समय 'बंदोबस्त निधि' को कहाँ दिखाया जाता है ?

22 Give answer in one word for the following:

1×4

- (i) Forfeiture of shares results in the reduction of -
- (ii) At the time of disclosure of 'share capital' in company's Balance Sheet securities premium reserve is shown under -
- (iii) The call money demand by the company if not paid by a share holder will be debited to which account?
- (iv) A share of ₹ 100 on which ₹ 60 has been paid, is forfeited, can be re-issued at the minimum price of -

निम्नलिखित के लिए एक शब्द में उत्तर दीजिए:

- (i) अंशों की जब्ती का परिणाम किसमें कमी लाता है ?
- (ii) कम्पनी के स्थिति विवरण में 'अंश पूँजी' के प्रकटीकरण के समय प्रतिभूति प्रीमियम संचय को किसके अन्तर्गत दर्शाया जाता है ?
- (iii) यदि कम्पनी द्वारा याचित याचना राशि का भुगतान अंशधारी द्वारा नहीं किया जाता तो उसे किस खाते के नाम पक्ष में दर्शाया जाएगा ?
- (iv) ₹ 100 का एक अंश जिस पर ₹ 60 का भुगतान हो चुका है, यदि जब्त किया गया, तो उसे कम से कम किस मूल्य पर पुनर्निर्गमित किया जा सकता है ?

23 Write the names of two affected accounts in the following transactions while preparing accounting equation:

1×4

- (i) Goods purchased in cash for ₹ 60,000.
- (ii) Received commission of ₹ 4,000.
- (iii) Received a cheque from Amit.
- (iv) Goods sold for ₹ 10,000 in cash.

लेखांकन समीकरण तैयार करते समय निम्नलिखित लेन-देनों से प्रभावित होने वाले दो खातों के नाम लिखिए:

- (i) ₹ 60,000 का माल नकद क्रय किया।
- (ii) ₹ 4,000 का कमीशन प्राप्त किया।
- (iii) अमित से एक चैक प्राप्त किया।
- (iv) ₹ 10,000 का माल नकद विक्रय किया।

24 Give names of accounting errors in the following transactions:

1×4

- (i) Sold of old furniture to Ram for ₹ 1,000 not recorded.
- (ii) Goods purchased from Amit for ₹ 520 recorded as ₹ 250 in the Purchases Book.
- (iii) Paid ₹ 12,000 for the installation of machinery debited to wages account.
- (iv) Repairs of ₹ 300 for building debited to building account.

निम्नलिखित लेनदेनों में लेखांकन अशुद्धियों के नाम बताइये:

- (i) राम को बेचे गए ₹ 1,000 के पुराने फर्नीचर का लेखा नहीं किया गया।
- (ii) अमित से ₹ 520 का क्रय किया माल का लेखा क्रय बही में ₹ 250 से किया गया।
- (iii) मशीनरी की स्थापना पर भुगतान किए गए ₹ 12,000 का लेखा मजदूरी खाते के नाम पक्ष में कर दिया गया।
- (iv) भवन की मरम्मत के ₹ 300 का लेखा भवन खाते के नाम पक्ष में किया गया।

25 (i) Explain with the help of an example how share of profit upto the date of death of a partner is calculated on 'Time Basis'. **2**

एक उदाहरण की सहायता से समझाइये कि 'समय आधार' पर मृत साझेदार की मृत्यु की तिथि तक लाभ में उसके भाग की गणना कैसे की जाएगी।

OR / अथवा

(ii) State any two situations when a partnership firm can be compulsorily dissolved.

ऐसी किन्हीं दो स्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें साझेदारी फर्म का अनिवार्य रूप से समापन हो सकता है।

26 (i) What is meant by 'Under subscription' and 'Over subscription'? 2

‘अल्प अभिदान’ और ‘आधिक्य अभिदान’ का क्या अर्थ है ?

OR / अथवा

(ii) Give meaning of 'calls-in-advance'. Also state at what rate interest on calls-in-advance is paid.

‘पूर्व प्राप्त याचना’ का अर्थ दीजिए। साथ ही पूर्व प्राप्त याचना राशि पर दिए जाने वाले ब्याज दर का उल्लेख कीजिए।

27 (i) Explain 'Average profit method' of valuation of goodwill. 2

ख्याति मूल्यांकन की ‘औसत लाभ विधि’ समझाइये।

OR / अथवा

(ii) Explain the following factors affecting goodwill:

(a) Quality

(b) Market situation

ख्याति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को समझाइये:

(a) गुणवत्ता

(b) बाज़ार की स्थिति

28 Explain the following terms: 2

(a) Capital Receipts

(b) Revenue Receipts

निम्नलिखित पदों को समझाइये:

(a) पूँजीगत प्राप्तियां

(b) आगम प्राप्तियां

29 (i) What is meant by Single Entry System? Explain the following uses of Single Entry System: 3

(a) Suitable for small concerns

(b) Less expensive

‘एक अंकन प्रणाली’ का क्या अर्थ है? एक अंकन प्रणाली के निम्नलिखित उपयोगों को समझाइये:

(a) लघु इकाइयों हेतु उपयुक्त

(b) कम खर्चीली

OR / अथवा

(ii) Explain the following type of assets with an example of each:

(a) Wasting assets

(b) Fictitious assets

(c) Liquid assets

निम्नलिखित संपत्तियों के प्रकारों को प्रत्येक के एक-एक उदाहरण सहित समझाइये:

(a) क्षयी संपत्तियां

(b) अवास्तविक संपत्तियां

(c) तरल संपत्तियां

30 (i) Calculate cost of goods sold and gross profit from the following information for the year ending 31st March, 2024 : 3

	₹
Sales	1,80,000
Purchases	1,00,000
Octroi	1,800
Purchase returns	3,600
Opening stock	33,600
Closing stock	35,400

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष की निम्नलिखित सूचनाओं से बेचे माल की लागत व सकल लाभ की गणना कीजिए :

	₹
विक्रय	1,80,000
क्रय	1,00,000
ओक्ट्रॉय (चुंगी)	1,800
क्रय वापसी	3,600
आरंभिक स्टॉक	33,600
अंतिम स्टॉक	35,400

OR / अथवा

(ii) Calculate the amount of Rent to be shown in the Income and Expenditure Account for the year ending 31st March, 2025 :

- (a) Rent paid in the current year ₹ 1,000
- (b) Rent due but not paid current year ₹ 200
- (c) Rent paid last year for this year ₹ 300
- (d) Rent due of last year paid in this year ₹ 500
- (e) Advance rent paid for next year in this year..... ₹ 400

31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय-व्यय खाते में दर्शाने के लिए किराए की राशि की गणना कीजिए :

- (a) चालू वर्ष में भुगतान किया गया किराया ₹ 1,000
- (b) चालू वर्ष में देय किराया जिसका भुगतान नहीं हुआ ₹ 200
- (c) पिछले वर्ष में इस वर्ष के लिए भुगतान किया गया किराया ₹ 300
- (d) पिछले वर्ष का देय किराया जिसका भुगतान इस वर्ष में किया गया..... ₹ 500
- (e) चालू वर्ष में अगले वर्ष के लिए भुगतान किया गया अग्रिम किराया ₹ 400

31 (i) Pass necessary journal entries at the time of dissolution in the following cases: 3

- (a) Settlement of loan given by the partner to the firm.
- (b) Payment of a liability by a partner.
- (c) Distribution of loss of Realisation A/c among partners.

निम्नलिखित स्थितियों में समापन के समय की जाने वाली आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए:

- (a) साझेदार द्वारा फर्म को दिए गये ऋण का निपटान।
- (b) साझेदार द्वारा देयता का भुगतान।
- (c) वसूली खाते की हानि का साझेदारों में वितरण।

OR / अथवा

(ii) List any four amounts that are debited to the account of the deceased partner's legal representative. Also state at what rate the legal representatives of a deceased partner is entitled for interest on the amount due from the date of death till the date of final payment?

मृत साझेदार के वैधानिक प्रतिनिधि के खाते के नाम पक्ष में लिखी जाने वाली किन्हीं चार राशियों की सूची बनाइये। साथ ही यह भी उल्लेख कीजिए कि मृत साझेदार का वैधानिक प्रतिनिधि मृत्यु की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक किस दर से देय राशि पर ब्याज प्राप्त करने का हकदार है ?

32 Pass necessary journal entries for a share of ₹ 10 which is forfeited for non-payment of first and final call of ₹ 3, in the following cases, if it is re-issued at: **3**

- (i) ₹ 10 per share
- (ii) ₹ 8 per share
- (iii) ₹ 12 per share

₹ 10 के एक अंश को जिसे ₹ 3 की प्रथम एवं अंतिम याचना राशि प्राप्त न होने के कारण जब्त कर लिया है, उसे पुनः निर्गमित करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए, यदि उसे पुनः निर्गमित किया गया है:

- (i) ₹ 10 प्रति अंश
- (ii) ₹ 8 प्रति अंश
- (iii) ₹ 12 प्रति अंश

33 (i) At the time of disclosure of 'Share capital' of a company in the Balance Sheet what is disclosed under 'Equity and Liabilities'? Also state the items to be disclosed under 'Notes to Accounts'. **3**

कम्पनी के स्थिति विवरण में 'अंश पूंजी' के प्रकटीकरण के समय 'समता एवं देयताओं' में क्या प्रकट किया जाता है? साथ ही 'खातों पर टिप्पणियां' के अर्न्तगत प्रकट की जाने वाली मदों का भी उल्लेख कीजिए।

OR / अथवा

(ii) What is meant by 'Re-issue of shares'? Is any offer to general public is made for re-issue of shares? Who decides the price of re-issue?

‘अंशों के पुनःनिर्गमन’ का क्या अर्थ है? क्या सामान्य जनता को अंशों के पुनःनिर्गमन के लिए कोई प्रस्ताव किया जाता है? अंशों का पुनःनिर्गमन मूल्य कौन निर्धारित करता है?

- 34 (i) From the following Trial Balance of Manish, prepare Trading Account, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2024 and a Balance Sheet as on that date: 5

Trial Balance of Manish as on 31st March, 2024

Particulars	Dr. Amount (₹)	Cr. Amount (₹)
Capital		50,000
Drawings	20,000	
Debtors and Creditors	24,000	16,000
Bank Loan (12% p.a.)	-	10,000
Interest on Loan	800	
Opening stock	26,700	
Furniture and Fixtures	33,900	
Carriage Inwards	11,000	
Salaries	22,000	
Purchases and Sales	50,000	1,31,000
Commission	-	9,000
Cash and Bank	27,600	
Total	2,16,000	2,16,000

Additional Informations:

- (i) Closing stock on 31/03/2024 was ₹ 36,000.
- (ii) Interest of ₹ 400 on Bank Loan has due but not paid.
- (iii) A provision for doubtful debts is to maintained @ 5% on debtors.

मनीष के निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता, लाभ व हानि खाता और उसी तिथि को स्थिति विवरण तैयार कीजिए:

31 मार्च, 2024 को मनीष की तलपट

विवरण	नाम राशि (₹)	जमा राशि (₹)
पूँजी		50,000
आहरण	20,000	
देनदार और लेनदार	24,000	16,000
बैंक ऋण (12% प्रति वर्ष)	-	10,000
ऋण पर ब्याज	800	
आरंभिक स्टॉक	26,700	
फर्नीचर व फिक्सचर्स	33,900	
आवक माल गाड़ीभाड़ा	11,000	
वेतन	22,000	
क्रय एवं विक्रय	50,000	1,31,000
कमीशन	-	9,000
रोकड़ एवं बैंक	27,600	
कुल	2,16,000	2,16,000

अतिरिक्त सूचना:

- ता. 31/03/2024 को अंतिम स्टॉक ₹ 36,000 था।
- बैंक ऋण पर ₹ 400 का ब्याज देय हो चुका है लेकिन वह अभी दिया नहीं है।
- देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाया जाना है।

OR / अथवा

- (ii) From the following Receipts and Payments Account of R.K. Sports Club, prepare Income and Expenditure Account for the year ending 31st March, 2024.

**Receipts and Payments Account of R.K. Sports Club
for the year ending 31st March, 2024**

Receipts	Amount (₹)	Payments	Amount (₹)
Balance b/d	5,500	Salaries	7,000
Interest	600	Investments	8,000
Miscellaneous receipt	3,000	Stationery	5,200
Entrance fees	2,000	Furniture	10,000
Sale of old furniture (book value ₹ 2,000)	500	Balance c/d	6,400
Subscription	15,000		
Donation for building	10,000		
	36,600		36,600

Additional Information :

- (a) Subscription includes outstanding subscription of ₹ 2,500 for the year 2022-23 and ₹ 2,000 for the year 2024-25.
- (b) Salary outstanding is ₹ 1,200.
- (c) Interest accrued but not received is ₹ 200.
- (d) Provide depreciation on furniture @ 10%.

आर.के. स्पोर्ट्स क्लब के निम्नलिखित प्राप्ति एवं भुगतान खाते से 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता तैयार कीजिए:

आर. के. स्पोर्ट्स क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष का

प्राप्तियां	राशि (₹)	भुगतान	राशि (₹)
शेष आगे लाये	5,500	वेतन	7,000
ब्याज	600	निवेश	8,000
विविध प्राप्तियां	3,000	स्टेशनरी	5,200
प्रवेश शुल्क	2,000	फर्नीचर	10,000
पुराने फर्नीचर का विक्रय (पुस्तक मूल्य ₹ 2,000)	500	शेष आगे ले गये	6,400
चंदा	15,000		
भवन के लिए दान	10,000		
	36,600		36,600

अतिरिक्त सूचना:

- चंदे में वर्ष 2022-23 का चंदा ₹ 2,500 और वर्ष 2024-25 का ₹ 2,000 का बकाया चंदा सम्मिलित है।
- अदत्त वेतन ₹ 1,200 है।
- उपार्जित परंतु प्राप्त नहीं ब्याज ₹ 200 है।
- फर्नीचर पर 10% की दर से ह्रास लगाया जाना है।

- 35 Gautam and Yashika are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:1. The Balance Sheet of the firm as on 31st March, 2024 was as follows

5

Balance Sheet of Gautam and Yashika as on 31/03/2024.

Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)
Sundry Creditors	80,000	Cash in hand	90,000
Capitals:		Stock	1,40,000
Gautam 4,00,000		Debtors	80,000
Yashika 1,00,000	5,00,000	Furniture	60,000
		Machinery	2,10,000
	5,80,000		5,80,000

Asma is admitted as a partner for $\frac{3}{8}$ th share in the profits with a capital of ₹ 2,10,000 and ₹ 50,000 for her share of goodwill. It was decided that

- New profit-loss sharing ratio will be 3:2:3.
- Machinery will depreciated by ₹ 26,000.
- Stock was revalued at ₹ 2,10,000.
- Provision for doubtful debts is to be created at 10% on debtors.
- The capital of all the partners were to be in the new profit sharing ratio on the basis of capital of new partner. Any adjustment to be made through current accounts of partners.

Prepare Revaluation Account and Partners' Capital Accounts.

गौतम और यशिका एक फर्म में साझेदार हैं। वे अपने लाभों एवं हानियों को 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च, 2024 को फर्म का स्थिति विवरण निम्नलिखित था:

गौतम एवं यशिका का 31 मार्च, 2024 का स्थिति विवरण

देयताएं	राशि (₹)	संपत्तियां	राशि (₹)
विविध लेनदार	80,000	हस्तस्थ रोकड़	90,000
पूँजी:		स्टॉक	1,40,000
गौतम 4,00,000		देनदार	80,000
यशिका 1,00,000	5,00,000	फर्नीचर	60,000
		मशीनरी	2,10,000
	5,80,000		5,80,000

आस्मा को लाभों में 3/8 भाग के लिए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया। वह ₹ 2,10,000 पूँजी व ₹ 50,000 ख्याति के अपने भाग के लिए लाएगी। यह निर्णय लिया गया कि:

- फर्म का नया लाभ-हानि विभाजन अनुपात 3:2:3 होगा।
- मशीनरी पर ₹ 26,000 से मूल्यहास लगाया जाएगा।
- स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन ₹ 2,10,000 पर होगा।
- देनदारों पर 10% की दर से संदिग्ध ऋण प्रावधान का सृजन किया जाएगा।
- सभी साझेदारों की पूँजीयां नए साझेदार द्वारा लाई गई पूँजी के आधार पर नए लाभ हानि विभाजन अनुपात के अनुसार समायोजित की जाएगी। कोई भी समायोजन साझेदारों के चालू खातों के माध्यम से किया जाएगा।

पुनर्मूल्यांकन खाता तथा साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कीजिए।

- 36 (i) Keshav Ltd. issued a prospectus for inviting applications from the public for 20,000 equity shares of ₹ 10 each. The amounts were payable as follows: 5

On Application ₹ 2 per share

On Allotment ₹ 3 per share

On first and final call the balance

Applications were received for 24,000 equity shares and allotment was made as follows:

Full allotment on applications for 16,000 shares.

No applications for 6,000 shares - 4,000 shares were allotted.

No allotment was made on applications for 2,000 shares.

All money due was called and received except call money on 200 shares held by Hitesh. These shares were forfeited.

Pass necessary journal entries in the books of Keshav Ltd.

केशव लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 20,000 समता अंशों हेतु जनता से आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रविवरण जारी किया। राशियां निम्न प्रकार से देय थी:

आवेदन पर ₹ 2 प्रति अंश

आबंटन पर ₹ 3 प्रति अंश

प्रथम व अंतिम याचना पर शेष

24,000 समता अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और आबंटन निम्न प्रकार हुआ:

16,000 अंश आवेदकों को पूर्ण आबंटन

6,000 अंश आवेदकों को 4,000 अंशों का आबंटन

2,000 अंशों के आवेदनों पर कोई आबंटन नहीं

सभी देय धनराशि मांग ली गई और प्राप्त हो गई, केवल हितेश द्वारा धारित 200 अंशों पर याचना राशि को छोड़कर। इन अंशों को जब्त कर लिया गया।

केशव लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए।

OR / अथवा

- (ii) M.K. Cars Ltd. issued 2,00,000 shares of ₹ 20 each at a premium of ₹ 5 per share. Payable as follows:

On application	₹ 8 (including ₹ 2 premium) per share
On allotment	₹ 16 (including ₹ 3 premium) per share
On first and final call	the balance

Applications were received for 2,00,000 shares and allotment was made to all applicants. All money due was called and received except first and final call money on 5,000 shares which were forfeited.

Pass necessary journal entries in the books of M.K. Cars Ltd.

एम.के. कार्स लिमिटेड ने ₹ 20 प्रत्येक के 2,00,000 अंशों को ₹ 5 प्रत्येक के प्रीमियम पर निर्गमित किया, जो निम्न प्रकार देय थी:

आवेदन पर	₹ 8 (₹ 2 प्रीमियम सम्मिलित) प्रति अंश
आबंटन पर	₹ 16 (₹ 3 प्रीमियम सम्मिलित) प्रति अंश
प्रथम व अंतिम याचना	शेष

2,00,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदकों को आबंटन कर दिया गया। सभी देय राशियां मंगवा ली गई व प्राप्त हुई। केवल 5,000 अंशों को छोड़कर जिन पर प्रथम व अंतिम याचना राशि प्राप्त नहीं हुई, उन्हें जब्त कर लिया गया।

एम.के. कार्स लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए।

SECTION – B

खण्ड – B

(Attempt any one of the Optional Modules)

(वैकल्पिक मॉड्यूलों में कोई एक का उत्तर दीजिये)

OPTIONAL MODULE – I

वैकल्पिक मॉड्यूल – I

(Analysis of Financial Statements)

(वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

- 37 If cost of Revenue from operations is ₹ 1,80,000; Gross Profit is ₹ 50,000; Opening inventory is ₹ 29,000 and Closing inventory is ₹ 31,000. 1

The Inventory Turnover ratio will be:

- (A) 6 times
- (B) 3 times
- (C) 2.16 times
- (D) 4.3 times

यदि प्रचालन से आगम की लागत ₹ 1,80,000 है; सकल लाभ ₹ 50,000 है; आरंभिक स्कंध ₹ 29,000 है और अंतिम स्कंध ₹ 31,000 है, तो स्कंध (स्टॉक) आवर्त अनुपात होगा:

- (A) 6 बार/गुणा
- (B) 3 बार/गुणा
- (C) 2.16 बार/गुणा
- (D) 4.3 बार/गुणा

38 If Equity share capital is ₹ 2,00,000; General Reserve is ₹ 50,000; Debentures are ₹ 5,00,000 and Trade creditors are ₹ 50,000, then the debt-equity ratio will be: 1

- (A) 2.2:1 (B) 2:1
(C) 2.5:1 (D) 5:1

यदि समता अंश पूँजी ₹ 2,00,000 है; सामान्य अनामत ₹ 50,000 है; ऋणपत्र ₹ 5,00,000 हैं और व्यापारिक लेनदार ₹ 50,000 हैं, तो ऋण-समता अनुपात होगा:

- (A) 2.2:1 (B) 2:1
(C) 2.5:1 (D) 5:1

39 While preparing cash flow statement 'Dividend paid on shares' is categorised under which of the following activities? 1

- (A) Operating activities
(B) Investing activities
(C) Financing activities
(D) Both operating and financing activities

रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय 'अंशों पर लाभांश का भुगतान' को निम्नलिखित क्रियाओं में से किस श्रेणी में रखा जाता है ?

- (A) परिचालन क्रियाएं
(B) निवेश क्रियाएं/विनियोजन क्रियाएं
(C) वित्तीयन क्रियाएं
(D) प्रचालन व वित्तीयन क्रियाएं दोनों

40 Which of the following is considered as 'Cash Equivalents' while preparing cash flow statement? 1

- (A) Depreciation (B) Dividend received
(C) Gain on sale of land (D) Marketable securities

रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय निम्नलिखित में से किसे 'रोकड़ तुल्य' माना जाता है ?

- (A) मूल्यहास (B) प्राप्त लाभांश
(C) भूमि के विक्रय पर अधिलाभ (D) विपणनीय प्रतिभूतियां

41 Which of the following is not an item of cash flows from operating activities? 1

- (A) Cash payment to employees
- (B) Cash payment to acquire shares
- (C) Refund of income tax
- (D) Cash payment to suppliers for goods

निम्नलिखित में से कौन सी मद परिचालन क्रियाओं में रोकड़ का प्रवाह नहीं है ?

- (A) कर्मचारियों को नकद भुगतान
- (B) अंशों के अधिग्रहण के लिए नकद भुगतान
- (C) आयकर की वापसी (रिफंड)
- (D) माल पूर्तिकर्ताओं को नकद भुगतान

42 If current-ratio is 2:1, which of the following transactions will improve the current ratio? 1

- (A) Payment of ₹ 10,000 to creditors.
- (B) Received ₹ 5,000 from debtors.
- (C) Purchased goods for ₹ 8,000.
- (D) Purchase of fixed assets by taking long term loan.

यदि चालू अनुपात 2:1 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लेनदेन चालू अनुपात में वृद्धि करेगा ?

- (A) लेनदारों को ₹ 10,000 का भुगतान।
- (B) देनदारों से ₹ 5,000 की प्राप्ति।
- (C) ₹ 8,000 के माल का क्रय।
- (D) दीर्घावधि ऋण से स्थायी संपत्तियों का क्रय।

43 Complete the following sentences : 1×2

- (i) The term liquidity refers the ability of the company to meet its -
- (ii) A high 'Trade Payable Turnover Ratio' indicates -

निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए:

- (i) तरलता शब्द का तात्पर्य है कम्पनी की वह क्षमता जिससे वह पूरा कर सके अपने -
- (ii) उच्च 'देय व्यापार आवर्त अनुपात' संकेत करता है -

44 Calculate Net Profit Ratio from the following:

2

Amount (₹)

Net Profit 65,000

Sales 8,40,000

Sales Returns 40,000

निम्नलिखित से शुद्ध लाभ अनुपात की गणना कीजिए:

राशि (₹)

शुद्ध लाभ 65,000

विक्रय 8,40,000

विक्रय वापसी 40,000

45 Explain the treatment of proposed dividend in cash flow statement.

2

रोकड़ प्रवाह विवरण में प्रस्तावित लाभांश के व्यवहार को समझाइये।

46 Explain following advantages of 'Ratio Analysis':

3

(a) Useful in analysis of financial statements

(b) Useful in simplifying accounting figures

(c) Useful for forecasting

‘अनुपात विश्लेषण’ के निम्नलिखित लाभों को समझाइये:

(a) वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में उपयोगी

(b) लेखांकन मदों (फिगर्स) के सरलीकरण में उपयोगी

(c) भविष्यवाणी के लिए उपयोगी

- 47 From the following Balance Sheets of Shiva Ltd., calculate cash flow from operating activities, investing activities and financing activities: 5

Particulars	Note No.	31 st March 2024 (₹)	31 st March 2023 (₹)
I Equity and liabilities			
1 Shareholders' funds :			
(a) Share Capital		2,10,000	1,80,000
(b) Reserves and Surplus	1	1,32,000	24,000
2 Non-current liabilities :			
Long-term borrowings :			
10% Debentures		1,50,000	1,50,000
3 Current liabilities :			
Trade payables		75,000	27,000
Total		5,67,000	3,81,000
II Assets			
1 Non-current assets :			
(a) Fixed assets:			
Tangible assets		2,94,000	2,52,000
(b) Non-current investments		48,000	18,000
2 Current assets :			
(a) Inventories : Stock		1,07,000	24,000
(b) Trade receivables		40,000	17,500
(c) Cash and cash equivalents		78,000	69,500
Total		5,67,000	3,81,000

Notes to Accounts

Particulars	31 st March 2024 (₹)	31 st March 2023 (₹)
1 Reserve and Surplus		
Surplus : i.e. Balance in statement of profit and loss	1,32,000	24,000

शिवा लिमिटेड के निम्न लिखित स्थिति विवरणों से प्रचालन क्रियाओं, निवेश क्रियाओं तथा वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए:

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 (₹)	31 मार्च 2023 (₹)
I समता एवं देयताएं			
1 अंशधारकों के कोष :			
(a) अंश पूँजी		2,10,000	1,80,000
(b) अनामत एवं आधिक्य	1	1,32,000	24,000
2 गैर-चालू देयताएं :			
दीर्घावधि उधारी : 10% ऋणपत्र		1,50,000	1,50,000
3 चालू देयताएं :			
व्यापारिक देय		75,000	27,000
कुल		5,67,000	3,81,000
II संपत्तियां			
1 गैर-चालू संपत्तियां :			
(a) स्थायी संपत्तियां :			
मूर्त संपत्तियां		2,94,000	2,52,000
(b) गैर-चालू निवेश		48,000	18,000
2 चालू संपत्तियां :			
(a) इन्वेन्ट्रीज : स्टॉक		1,07,000	24,000
(b) व्यापारिक प्राप्त्य		40,000	17,500
(c) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य		78,000	69,500
कुल		5,67,000	3,81,000

खातों पर टिप्पणियां

विवरण	31 मार्च 2024 (₹)	31 मार्च 2023 (₹)
1 अनामत एवं आधिक्य		
आधिक्य : अर्थात् लाभ हानि विवरण में शेष	1,32,000	24,000

OPTIONAL MODULE – II

वैकल्पिक मॉड्यूल – II

(Application of Computers in Financial Accounting)

(कम्प्यूटर का वित्तीय लेखांकन में उपयोग)

37 In Excel software Pie chart can not plot more than: 1

- (A) 7 categories (B) 10 categories
(C) 8 categories (D) 12 categories

एक्सल साफ्टवेयर में पाई चार्ट किससे अधिक अंकित (plot) नहीं कर सकता ?

- (A) 7 श्रेणियां (B) 10 श्रेणियां
(C) 8 श्रेणियां (D) 12 श्रेणियां

38 Excel worksheet supports the functions of calculating depreciation on assets by : 1

- (A) Straight line method of depreciation
(B) Diminishing balance method of depreciation
(C) Sum of years digit method of depreciation
(D) All of the above

एक्सल वर्कशीट संपत्तियों पर ह्रास की गणना के प्रकार्यों का समर्थन करती है:

- (A) ह्रास की सरल रेखा विधि द्वारा
(B) ह्रास की ह्रासित (घटते) शेष विधि द्वारा
(C) ह्रास की द्विह्रासित शेष विधि द्वारा
(D) उपरोक्त सभी के द्वारा

39 While modifying a chart which of the following is not a step of modify the 'labels and titles'? **1**

- (A) Click the 'Chart'.
- (B) On the 'Layout' tab, click the 'Chart Title' or the 'Data Labels' button.
- (C) Change the 'Title' and click 'Enter'.
- (D) Click the switch Row/Column button on the 'Design' tab.

एक चार्ट में संशोधन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा चरण 'लेबल्स एवं टाइटल्स' के संशोधन का नहीं है ?

- (A) 'चार्ट' पर क्लिक कीजिए।
- (B) 'ले-आउट' (Layout) टेब पर 'चार्ट टाइटल' अथवा 'डेटा लेबल्स' बटन क्लिक करें।
- (C) 'टाइटल' को बदले व 'एन्टर' को क्लिक करें।
- (D) 'डिजाइन' टेब पर स्विच रॉ/कॉलम बटन पर क्लिक करें।

40 While defining the structure of the 'table' in Access 'Hyperlink' is used for: **1**

- (A) Storing comments.
- (B) Storing numbers and are subjected to arithmetical calculations.
- (C) Storing universal resource locators and email addresses.
- (D) Entering numeric data automatically.

एक्सेस में एक 'सारणी' की संरचना को परिभाषित करते समय 'हाइपरलिंक' का प्रयोग होता है:

- (A) सम्मति (कमेंट्स) में भंडारण के लिए।
- (B) अंकगणितीय गणनाओं पर निर्भर होनेवाली संख्याओं के भंडारण के लिए।
- (C) यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर व ईमेल एड्रेस के भंडारण के लिए।
- (D) संख्यात्मक डाटा को स्वतः प्रविष्ट करने के लिए।

41 Which of the following is not an element in the process of structuring a data base? 1

- (A) Requirement analysis (B) Object linking and embedding
(C) Conceptual design (D) Logical design

निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस की संरचना प्रक्रिया का चरण नहीं है ?

- (A) आवश्यकता विश्लेषण (B) ओब्जेक्ट लिंकिंग एंड एंबेडिंग
(C) संकल्पित रूपरेखा (D) तार्किक रूपरेखा

42 Basic pay earned by an employee is calculated on the basis of: 1

- (A) Total number of days in a month
(B) Dearness allowance $\times$ Total no. of days in a month
(C) Number of effective days present
(D) House rent allowance $\times$ Number of effective days in a month

एक कर्मचारी द्वारा अर्जित मूल वेतन की गणना का आधार है:

- (A) एक माह में कुल दिनों की संख्या
(B) मंहगाई भत्ता $\times$ एक माह में कुल दिनों की संख्या
(C) उपस्थित प्रभावी दिनों की संख्या
(D) आवास भाड़ा भत्ता $\times$ एक माह में प्रभावी दिनों की संख्या

43 The net amount of salary is the difference between _____ and _____. 1 $\times$ 2

शुद्ध वेतन की राशि _____ व _____ के बीच का अंतर है।

44 Explain the following components of deductions in payroll accounting: **2**

- (a) Provident fund
- (b) Tax Deduction at Source

पेरोल लेखांकन में कटौती के निम्नलिखित घटकों को समझाइये:

- (a) भविष्य निधि
- (b) उद्गम स्थान पर कर कटौती

45 Explain any two advantages of using graphs. **2**

ग्राफ के प्रयोग के कोई दो लाभों को समझाइये।

46 State the steps for creating a chart using Charts/Graphs tools in Excel. **3**

एक्सल में चार्ट टूल्स के प्रयोग द्वारा चार्ट/ग्राफ बनाने के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए।

47 What is 'Microsoft Access'? Explain the main components of Microsoft Access. **5**

‘माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस’ क्या है ? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के मुख्य अवयवों को समझाइये।
